

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 596]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 7, 2014/फाल्गुन 16, 1935

No. 596]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 7, 2014/PHALGUNA 16, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2014

का.आ. 698.(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 601(अ), तारीख 11 मार्च, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा ओडिशा राज्य के अनगुल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 के 88.000 कि. मी. से 112.000 कि.मी. (कटक—अनगुल सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 4 अप्रैल, 2013 को "द सम्बाद" और "धारित्री" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

## अनुसूची

ओड़िशा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 के 88.000 कि.मी. से 112.000 कि.मी. (कटक—अनगुल सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	भूस्वामी /हितबद्ध व्यक्ति के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अनगुल	1. बअंरपाल	(1) जोरगाडिया	(चक संख्या 51) 86	निजी	कृषि	0.730	अन्तरयामी धीर, पुत्र किनु धीर, विल: नौता
				(चक संख्या 52) 88	निजी	कृषि	3.960	
				(चक संख्या 109) 169	निजी	कृषि	0.510	करुणाकर रौत, पुत्र बाली रौत, बिजुली रौत, पत्नी बाली रौत, बैन्धीधर रौत, पुत्र इकादशिया रौत, रवि रौत, छवि रौत, पुत्र बनाम्बर रौत अहिल्या रौत, पत्नी बनाम्बर रौत, कुमार रौत, पुत्र पंचु रौत, गुरु चरण रौत, पुत्र कपिल रौत, झुम्पेइ रौत, पत्नी कपिल रौत, अकुला रौत, नकुला रौत, भाजमन रौत, पुत्र पडाबा रौत, मंगराज रौत, पुत्र प्रसादी रौत, बैदेही रौत, पत्नी काथी रौत, विल: जोरागरीया
				(चक संख्या 50) 84	निजी	कृषि	0.170	निलादी सामल, पुत्र बेरागी सामल, विल: निजीगाँव
				(चक संख्या 49) 83	निजी	कृषि	0.060	पुर्न चन्द्रा नायक, रमेश चन्द्रा नायक, पुत्र दाशरथी नायक, मौलिया नायक, पुत्र रामा चन्द्रा नायक, भोलेश्वर सामल, बेनुधार सामल, पुत्र रसानंद सामल, हेमा सामल, पत्नी रसानंद सामल विल: निजीगाँव
				75	सरकारी	रास्ता	0.110	सर्वसाधारण
				85	सरकारी	रास्ता	1.110	सर्वसाधारण
				87	सरकारी	सर्वसाधारण जोग्य	0.150	राखिता
				168	सरकारी	गोचर	0.050	राखिता
				170	सरकारी	गोचर	2.780	राखिता
			(2) नुआटा	2956/ 7693	निजी	सारद— II	0.230	अक्षय कुमार सामल, पुत्र दैत्री सामल, गाँव—निजगाँव
				4045	निजी	सारद— III	0.250	एंथनी साहू, पुत्र चन्द्रमणि साहू, गाँव—निजगाँव
				2351	निजी	घरबारी	0.040	अद्वैत प्रधान, सीता प्रधान, जुलुजुली प्रधान, पुत्र/पुत्री धोबेइ प्रधान, पाना प्रधान, पत्नी धोबेइ प्रधान, गाँव—निजगाँव
				2352	निजी	घरबारी	0.040	
				2408/ 6442	निजी	बाजे फसल— I	0.010	इश्वर दलबेहेरा, हरुषि दलबेहेरा, भरत दलबेहेरा, पुत्र धुर्ब दलबेहेरा, गाँव—निजगाँव
				4050	निजी	सारद— III	0.090	उदयनाथ खिलार, हृदयनंद खिलार, वृंदावन खिलार, पुत्र भिखारी खिलार, गाँव—निजगाँव
				1326	निजी	सारद— II	0.100	करुणा गोचायत पुत्रि छेमुतु गोचायत, गाँव—निजगाँव
				1535	निजी	सारद— III	0.300	
				3601/6643	निजी	घरबारी	0.020	कास्तु बेहेरा, पुत्र जगा बेहेरा, गाँव—निजगाँव
				2353	निजी	सारद— II	0.130	कार्तिक प्रधान, पुत्र सोमनाथ, प्रधान, गाँव—निजगाँव
				3412	निजी	सारद— III	0.010	कार्तिकेश्वर रौत, पुत्र दया रौत, गाँव—निजगाँव
				1456	निजी	सारद— III	0.070	कुंज बिहारी माझी, मरकांडा माझी, पुत्र अधिकारी माझी, गाँव—निजगाँव

				1537	निजी	सारद-III	0.120	
				2993	निजी	घरबारी	0.010	कुनु नायक, पुत्र खैरा नायक, गांव-निजगांव
				3016/ 6167	निजी	सारद-III	0.070	कूलमणि साहू, पुत्र पंचु साहू, गांव-निजगांव
				1264	निजी	सारद-II	0.080	कैलाश गोचायत, पुत्र नित्यानंद गोचायत, गांव-निजगांव
				2372	निजी	सारद-III	0.110	कैलाश सामल, गोविंद सामल, किशोर सामल, पुत्र नित्यानंद सामल, भानुमती सामल, पत्नी नित्यानंद सामल, गांव-निजगांव
				2795	निजी	सारद-III	0.030	
				2792	निजी	बगायत-II	0.320	कैलाश सामल, गोविंद सामल, किशोर सामल, पुत्र नित्यानंद सामल, भानुमती सामल, पत्नी नित्यानंद सामल, गिरिश चरण सामल, सिद्धेश्वर सामल, पुत्र चिन्तामणि सामल, ब्रह्मानंद सामल, पुत्र घन सामल, गांव-निजगांव
				2787	निजी	सारद-III	0.130	खिरोद माझी, पुत्र धम्बरुधर माझी, गांव-निजगांव
				2415	निजी	बाजे फसल-I	0.060	गौतम प्रधान, विजय प्रधान, मनु प्रधान, पुत्र हरुषिकेश प्रधान, रायबरी प्रधान, पत्नी हरुषिकेश प्रधान, गांव-निजगांव
				3567	निजी	सारद-III	0.030	गंगा गोचायत, पुत्र बिदा गोचायत, गांव-निजगांव
				1450	निजी	सारद-II	0.180	गतिकृष्ण सिंह, पुत्र श्याम सुंदर सिंह, गांव-निजगांव
				1245	निजी	सारद-III	0.400	गंधर्ब गोचायत, पुत्र धेंग गोचायत, गांव-निजगांव
				3602	निजी	सारद-III	0.040	गिरिश सामल, सावित्री सामल, पुत्र/पुत्री गोकुलनंद सामल, द्रौपदी सामल, पत्नी गोकुलनंद सामल अक्षय कुमार सामल, पुत्र देत्री सामल, हरुषिकेश बेहेरा, पुत्र तीर्थ बेहेरा, गांव-निजगांव नारायण नंद पुत्र दामोदर नंद, गांव-बलरामपुर, पी. एस. मोतंगा, ललित मोहन धीर, चक्रधर धीर, मंत्री धीर, खेत्रवासी धीर, पुत्र जोगेश्वर धीर, गांव-निजगांव
				3604	निजी	सारद-III	0.150	
				3604/ 6139	निजी	सारद-III	0.010	
				4093	निजी	तईला-I	0.180	गिरिधारी साहू, पुत्र पंचु साहू, गांव-निजगांव
				4108/ 6729	निजी	सारद-III	0.060	
				4092/ 6735	निजी	सारद-III	0.050	
				4310	निजी	सारद-II	0.070	गोविंद साहू, पुत्र आकुल साहू, गांव-निजगांव
				4108/ 6728	निजी	सारद-III	0.050	
				4093/ 6740	निजी	तईला-I	0.140	
				1452	निजी	सारद-III	0.100	गौराहरी माझी, पुत्र, त्रिगडा माझी, गांव-निजगांव
				1453	निजी	सारद-III	0.010	
				2791/ 6640	निजी	सारद-III	0.060	
				3408	निजी	सारद-III	0.030	चंचला रौत, गोजी रौत, पुत्री मगता रौत, गांव-जोरगदीया
				4103	निजी	तईला-II	0.030	चत्रुघुजा साहू, पुत्र खेत्र साहू, गांव-निजगांव
				4108	निजी	सारद-III	0.170	
				4093/ 6739	निजी	तईला-I	0.070	
				2386	निजी	घरबारी	0.010	चन्द्रशेखर भोइ, पुत्र बाती भोइ, गांव-निजगांव
				3601/ 6642	निजी	घरबारी	0.020	चन्द्रमणि बेहेरा, पुत्र जगा बेहेरा, गांव-निजगांव
				3600	निजी	सारद-III	0.030	चन्द्री प्रधान पत्नी गौतम प्रधान,

								गांव-निजगांव
			1253	निजी	सारद- II	0.260		छवि गोचायत, पुत्र नकुल गोचायत, गांव-निजगांव
			1263/ 6110	निजी	सारद- II	0.240		
			2961/ 7454	निजी	सारद- III	0.160		छवि दलबेहेरा, पुत्र कुलमणि दलबेहेरा, गांव-निजगांव
			1265	निजी	सारद- II	0.230		जतिया महालिक, पुत्र बर्जु महालिक, गांव-निजगांव
			1311	निजी	सारद- III	0.180		
			1304	निजी	सारद- II	0.220		जादुनाथ सेठी, पुत्र कन्है सेठी, रायबरी सेठी, पत्नी कन्है सेठी, गांव-निजगांव
			1309	निजी	सारद- II	0.070		
			4298	निजी	तईला- I	0.630		
			1304/ 6112	निजी	सारद- II	0.080		
			3599	निजी	सारद- III	0.040		जलंधर महाकुड पुत्र नट महाकुड गांव-निजगांव
			4117	निजी	सारद- III	0.180		जोगीनाथ साहू, पुत्र उपेन्द्र साहू, गांव-निजगांव
			4093/ 6736	निजी	तईला- I	0.040		
			4093/ 6737	निजी	तईला- I	0.120		
			4103/ 6738	निजी	तईला- I	0.020		
			1269	निजी	सारद- II	0.040		जोगेश्वर धीर, कालिया धीर, पुत्र पितबाश धीर हरुषि धीर, प्रसन्न धीर, पुत्र कालिया धीर, गांव-निजगांव
			1363	निजी	सारद- I	0.140		
			3270	निजी	तईला- I	0.020		
			3271	निजी	तईला- I	0.010		
			2959	निजी	सारद- III	0.240		टंकधर सिंह, पुत्र भास्कर सिंह, गांव-निजगांव
			2960	निजी	सारद- III	0.030		
			1529	निजी	सारद- II	0.040		टंकधर सिंह, विद्याधर सिंह, गदाधर सिंह, पिताम्बर सिंह, दिगम्बर सिंह, पुत्र भास्कर सिंह, गांव-निजगांव
			2958	निजी	सारद- III	0.020		
			3032	निजी	सारद- III	0.050		दामा सेठी, मदन सेठी, गांव-निजगांव
			3011	निजी	सारद- III	0.070		दम्बरुधर सामल, पुत्र नंदी सामल, गांव-निजगांव
			2961/ 7451	निजी	सारद- III	0.060		
			3556	निजी	सारद- III	0.280		दम्बरुधर रौत, सदा रौत, गदा रौत, बामदेव रौत, दंडाधर रौत, पुत्र केशव रौत, तनु रौत, पत्नी केशव रौत, जोगेश्वर रौत, सनातन रौत, पुत्र आनंद रौत, चन्द्रमणि रौत, गुमानी रौत, हादी रौत, पुत्र माही रौत, गांव-निजगांव
			3559	निजी	घरबारी	0.020		
			3563	निजी	तईला- II	0.010		
			1381	निजी	सारद- III	0.020		त्रिलोचन पानी, पुत्र दशरथी पानी, गांव-निजगांव
			3409	निजी	सारद- III	0.030		दयानिधि साहू, पुत्र ब्रह्मानंद साहू, गांव-जोरगदिया
			4298/ 6662	निजी	तईला- I	0.180		दामा सेठी, पुत्र दंगी सेठी, गांव-निजगांव
			1258	निजी	सारद- II	0.020		दशरथी सामल, पुत्र बुद्धिया सामल, गांव-निजगांव
			1460	निजी	सारद दो फसल- I	0.560		दीनबंधु माझी, पुत्र एंथु माझी, गांव-निजगांव
			1462	निजी	सारद- I	0.420		
			2780	निजी	सारद- III	0.030		
			1408	निजी	सारद दो फसल- I	0.180		श्री नीलकण्ठेश्वर महादेव बिजे निजगांव मरफत हेमन्त कुमार सिंह, पुत्र महेश्वर सिंह, गांव-निजगांव
			1463/ 6786	निजी	सारद- I	0.200		दुर्योधन सिंह, नारण सिंह, विभूति सिंह, पुत्र ब्रह्मानंद सिंह, सावित्री सिंह, पत्नी

				3273/ 7208	निजी	तईला-।	0.150	ब्रह्मानंद सिंह, गांव-निजगांव
				3161	निजी	तईला-।	0.070	देवकृष्ण बेहेरा, पुत्र दम्बरू बेहेरा, गांव-निजगांव
				3399	निजी	तईला-।	0.070	देवराज बेहेरा, पुत्र बेनुधर बेहेरा, गांव-निजगांव
				3164/ 7100	निजी	तईला-।	0.010	
				1252	निजी	सारद-।।	0.060	देवराज गोचायत, पुत्र चन्द्र गोचायत, गांव-निजगांव
				3403/ 6299	निजी	घरबारी	0.010	दोरबसा रौत, पुत्र तंकाधर रौत, गांव-जोरागदीया
				2994	निजी	सारद-।।।	0.030	धनेश्वर बारीक, पुत्र कृष्ण बारीक, मालती बारीक, पत्नी कृष्ण बारीक, गांव-निजगांव
				1366	निजी	सारद दो फसल-।	0.150	धर्मू गोचायत, पुत्र बेनुधर गोचायत, गांव-निजगांव
				2995	निजी	घरबारी	0.080	नयनी सामन्त, पत्नी ब्रह्मानंद सामन्त, गांव-निजगांव
				2876	निजी	घरबारी	0.100	नंदी सामल, सदानंद सामल, शसदेव सामल, पुत्र सत्यनंद सामल, पुत्र मंगराज सामल, गांव-निजगांव
				2877	निजी	घरबारी	0.030	
				2947	निजी	सारद-।।	0.310	
				2948	निजी	सारद-।।	0.270	
				1410	निजी	सारद दो फसल-।	0.020	नरहरी बेहेरा, पुत्र दामोदर बेहेरा, गांव-निजगांव
				4104/ 7423	निजी	सारद-।।।	0.080	नरेश साहू, पुत्र मुरली साहू, रंगेइ साहू, पत्नी मुरली साहू, गांव-निजगांव
				1194	निजी	सारद-।।।	0.040	नगरी मोहन सिंह, पुत्र श्रीमुख सिंह, गांव-निजगांव
				1379	निजी	सारद-।।।	0.030	नारण पानी, नरोत्तम पानी, नव किशोर पानी, पुत्र विश्वनाथ पानी, गांव-निजगांव
				1418	निजी	सारद-।	0.300	नित्यानंद धीर, परमानंद धीर, पुत्र विश्वनाथ धीर, निमैइ चरण बेहेरा, पुत्र कल्याण बेहेरा, गांव-निजगांव
				1413	निजी	सारद दो फसल-।	0.240	निर्मल कुमार बेहेरा, कमल लोचन बेहेरा, रजनीकांत बेहेरा, सरोज कुमार बेहेरा, मनोज बेहेरा, पुत्र प्रफुल कुमार बेहेरा, गांव-निजगांव
				1463	निजी	सारद-।	0.040	नित्यानंद सिंह, पुत्र शशि भूषण सिंह, गांव-निजगांव
				2878	निजी	घरबारी	0.040	नीलकंठ सामल, एंथनी सामल, भिखारी सामल, पुत्र इश्वर सामल, बछाना सामल, पत्नी इश्वर सामल, गांव-निजगांव
				2951/ 6989	निजी	सारद-।।।	0.020	
				2918	निजी	सारद-।।।	0.050	
				1243	निजी	सारद-।।।	0.230	नुकैइ गोचायत, पुत्र मगता गोचायत, गांव-निजगांव
				2414	निजी	बाजे फसल-।	0.060	पंचु दलबेहेरा, पुत्र अंगद दलबेहेरा, गांव-निजगांव
				2409	निजी	बाजे फसल-।।	0.010	पंचु दलबेहेरा, बुद्धिया दल बेहेरा, पुत्र अंगदा दलबेहेरा, राजकिशोर दलबेहेरा, उमेश दलबेहेरा छवि दलबेहेरा, पुत्र कुलमणी उधबा, सम्बरी उधबा, पत्नी हरी दलबेहेरा, राम दलबेहेरा, लक्ष्मण दलबेहेरा, भरत दलबेहेरा, शत्रुघन दलबेहेरा, पुत्र अर्जुन दलबेहेरा, सुवर्णा दलबेहेरा, पत्नी अर्जुन दलबेहेरा, ईश्वर दलबेहेरा, रुसि दलबेहेरा, भारत दलबेहेरा, पुत्र धुर्बा दलबेहेरा, हगुरु दलबेहेरा, पुत्र बैकुंठा दलबेहेरा, प्रभाकर दलबेहेरा, उमेश दलबेहेरा, चेरु दलबेहेरा, पुत्र श्रीचन्दन दलबेहेरा, विजय दलबेहेरा, बिजुली दलबेहेरा, पुत्र/पुत्री ललित दलबेहेरा, बंकी दलबेहेरा, पत्नी ललित दलबेहेरा, नीलमणि दलबेहेरा, नंद दलबेहेरा, पुत्र बानु दलबेहेरा, माधव दलबेहेरा, पुत्र

								मुरली दलबेहेरा, गांव-निजगांव
			3549	निजी	रास्ता	0.030		पदमा चौ रोउत, कर्तिकेश्वर रोउत पुत्र दया रोउत, मनु रोउत, अर्न्तयामी रोउत, पुत्र राधाकृष्ण रोउत, मेनका रोउत पत्नी राधा कृष्णा रोउत निवासी निजगांव
			1413/ 6953	निजी	सारद दो फसल-।	0.220		प्रसन्ती बेहेरा, पत्नी मानस रंजन बेहेरा, गांव-निजगांव
			3162	निजी	तईला-।	0.010		
			3165	निजी	तईला-।	0.010		
			3400	निजी	तईला-।	0.020		
			1242	निजी	सारद-।।।	0.300		परमनंद नंदा, पुत्र गतिकृष्ण नंदा, गांव-अनगुल टाउन
			3564	निजी	तईला-।	0.060		
			3565	निजी	सारद-।।।	0.010		
			1417	निजी	सारद-।	0.020		परमनंद धीर, पुत्र विश्वनाथ, धीर, गांव-निजगांव
			1554	निजी	सारद-।।	0.260		पलउ साहू, जलंधर साहू, पुत्र गंदु साहू, गांव-निजगांव
			4109	निजी	सारद-।।।	0.080		
			2785	निजी	सारद-।।।	0.380		प्रदीप्त माझी, प्रताप माझी, गीता माझी, पुत्र/पुत्री साहेबा माझी, उजाला माझी, पत्नी, साहेब माझी, गांव-निजगांव
			3401/ 7153	निजी	तईला-।	0.040		प्रफुल कुमार बेहेरा, पुत्र गंगाधर बेहेरा, गांव-निजगांव
			3171	निजी	तईला-।	0.070		
			2954	निजी	सारद-।।।	0.130		प्रफुल कुमार सामल, अर्न्तयामी सामल, पुत्र त्रिलोक्य सामल, गांव-निजगांव
			2955	निजी	तईला-।	0.060		
			2956/ 7497	निजी	सारद-।।	0.260		
			2958/7645	निजी	सारद-।।।	0.030		प्रफुल कुमार सामल, हडीबंधु सामल, पुत्र त्रिलोक्य सामल, छिना सामल, पत्नी, त्रिलोक्य सामल, गांव-निजगांव
			2873	निजी	घरबारी	0.130		प्रफुल सामल, हाडीबंधु सामल, पुत्र त्रिलोक्य सामल, छिना सामल, पत्नी, त्रिलोक्य सामल, रसनंद सामल, पुत्र उदयनाथ सामल, गांव-निजगांव
			2408	निजी	बाजे फसल-।	0.010		प्रभाकर दलबेहेरा, उमेश दलबेहेरा, चेरु दलबेहेरा, पुत्र श्रीचरण दलबेहेरा, गांव-निजगांव
			3015/ 6461	निजी	सारद-।।।	0.080		
			1244	निजी	सारद-।।।	0.340		प्रभाकर सामल, पुत्र अजाती सामल, गांव-निजगांव
			2707	निजी	सारद-।।।	0.070		
			1545	निजी	सारद-।।।	0.260		प्रसाद बेहेरा, बती बेहेरा, हता किशोर बेहेरा, पुत्र आकुल बेहेरा, गांव-निजगांव
			3568	निजी	सारद-।।।	0.070		पाडंब गोचायत पुत्र गंधर गोचायत गांव-निजगांव
			3571	निजी	सारद-।।।	0.030		
			3046	निजी	सारद-।।	0.020		पिताम्बर प्रधान पुत्र दामोदर प्रधान, सदा प्रधान, पुत्र सरेन्द्र प्रधान, अद्वैत प्रधान, सीता प्रधान, जुलुजुली प्रधान, पुत्र/पुत्री धोबेइ प्रधान, पाना प्रधान, पत्नी धोबेइ प्रधान, कार्तिक प्रधान पुत्र सोमनाथ प्रधान, हरमोहन सिंह, पुत्र मुकेश्वर सिंह, गांव-निजगांव
			3050	निजी	सारद-।।	0.010		
			1295	निजी	सारद-।।	0.180		पुति बारीक, पुत्री आनन्दी बारीक, गांव-निजगांव
			1296	निजी	सारद-।।	0.080		पुति बारीक, पुत्री आनन्दी बारीक, हाडीबंधु बारीक, पुत्र राजेन्द्र बारीक, ऐंथु बारीक, पुत्र मुसा बारीक, लक्ष्मीधर बारीक, बामन बारीक, पुत्र गौरंगा बारीक, तुलेइ बारीक, पत्नी गौरंगा बारीक, धनेश्वर बारीक, पुत्र कृष्ण बारीक, मालती बारीक, पत्नी कृष्ण बारीक, अपर्ती पानी, पुत्र दयानिधि पानी, बेहेरा,

								नरहरि बेहेरा, पुत्र दामोदर बेहेरा, सनातन साहू, पुत्र दनेइ साहू, उग्रेसन माझी, पुत्र दम्बारू माझी, गांव-निजगांव
			1297	निजी	सारद- II	0.090		
			1461	निजी	सारद- I	0.110		फुल सिंह पत्नी, भास्कर, गांव-निजगांव
			3404/6285	निजी	सारद- III	0.020		बाछा रौत, पुत्र विश्वनाथ रौत, गांव-निजगांव
			3134/7189	निजी	सारद- III	0.140		बटकृष्ण बेहेरा, पुत्र दम्बरूधर बेहेरा, गांव-निजगांव
			3161/ 7194	निजी	तईला- I	0.080		
			3091	निजी	सारद- III	0.010		
			2934/7227	निजी	सारद- III	0.070		बैशीधर सामल, पुत्र पिंड सामल, गांव-निजगांव
			1267	निजी	सारद- II	0.380		
			2784	निजी	सारद- III	0.020		
			2938	निजी	सारद- III	0.120		
			2798	निजी	सारद- III	0.160		ब्रहमानंद सामल, पुत्र घना सामल, गांव-निजगांव
			2799	निजी	सारद- III	0.510		
			1246	निजी	सारद- II	0.290		बया गोचायत पुत्र दनेइ गोचायत, गांव-निजगांव
			1247	निजी	सारद- II	0.070		
			1255	निजी	सारद- II	0.010		
			1308	निजी	सारद- II	0.050		विक्रम सेठी, पुत्र अभिराम सेठी, गांव-निजगांव
			1310	निजी	सारद- II	0.070		
			4311	निजी	तईला- I	0.010		
			4344	निजी	तईला- I	0.380		बिछान्दा साहू, सीता साहू, सुबर्णा साहू पुत्र / पुत्री दुल्लाव साहू, लोकनाथ साहू, सोमनाथ साहू, बेंगा साहू पुत्र / पुत्री हाडी साहू, भगवत साहू, दुनी साहू, हजीरि साहू पुत्र/पुत्री नबधना साहू गांव चाउरिदीया
			4347	निजी	सारद- III	0.010		
			2934	निजी	सारद- III	0.070		बिनोद सामल पुत्र पिंडा सामल गांव निजगांव
			3025	निजी	सारद- III	0.120		बुधिया दालबेहेरा पुत्र अंगादा दालबेहेरा निवासी निजगांव
			3404/ 6287	निजी	सारद- III	0.010		बालेश्वर रोउत पुत्र सत्यानन्दा रोउत निवासी जोरागदीया
			2788	निजी	सारद- III	0.100		भरमार माझी पुत्र पहालाद माझी निवासी निजगांव
			3404/ 6286	निजी	सारद- III	0.010		भरमार रोउत पुत्र सत्यानंद रोउत निवासी निजगांव
			1380	निजी	सारद- III	0.020		भागीरथी पानी, अपरती पानी, मेनका पानी, पुत्र/पुत्री दयानिधि पानी निवासी निजगांव
			1382	निजी	सारद दो फसल- I	0.160		भागीरथी पानी, अपरती पानी, मेनका पानी, पुत्र/पुत्री दयानिधि पानी नारण पानी, नब किशोर पानी, नरोत्ताम पानी, चमबेबती पानी, चमपाबती पानी, पुत्र/पुत्री विश्वनाथ पानी, त्रिलोचन पानी, पुत्र दाशरथी पानी निवासी निजगांव
			1383	निजी	सारद दो फसल- I	0.090		
			1384	निजी	सारद दो फसल- I	0.130		
			1414	निजी	पतीत	0.080		भागीरथी बेहेरा, रबिन्द्र बेहेरा, बिरेन्द्रा बेहेरा, सुरेन्द्र बेहेरा, पुत्र गोबिन्द बेहेरा निवासी निजगांव
			1530	निजी	सारद- II	0.260		भास्कर चौ सिंह पुत्र पदम चौ सिंह, निवासी निजगांव
			1534	निजी	सारद- III	0.160		
			1553	निजी	सारद दो फसल- II	0.030		

			4110	निजी	सारद- III	0.020	भोलेश्वर सामल, प्ररावाकर सामल पुत्र अजीत सामल, निरौद बिहारी सामल पुत्र बिर किशोर सामल, प्रमोन्नन्द सामल, अधीकान्द सामल, नलिनी सामल पुत्र / पुत्री बिश्वनाथ सामल, जयन्ती सामल, पत्नी बिश्वनाथ सामल, इन्द्रामणी सामल, निमाई सामल पुत्र बनमाली सामल निवासी निजगांव
			4111	निजी	सारद- III	0.040	
			1542	निजी	सारद- III	0.150	मंगाराज साहु पुत्र कान्हे साहु निवासी निजगांव
			1550	निजी	सारद दो फसल- II	0.020	
			1542/7510	निजी	सारद- III	0.090	
			1551	निजी	सारद दो फसल- II	0.030	मंगाराज साहु मुली साहु पुत्र कान्हे साहु निवासी निजगांव
			1552	निजी	सारद दो फसल- II	0.030	
			1263	निजी	सारद- III	0.130	मांगुलु सामल पुत्र बुटु सामल निवासी निजगांव
			1266	निजी	सारद- II	0.200	
			3041	निजी	सारद- III	0.190	
			3042	निजी	सारद- III	0.050	
			2415/6538	निजी	बाजे फसल- I	0.050	मंजरी प्रधान पत्नी महादेव प्रधान निवासी निजगांव
			2786	निजी	सारद- III	0.020	मनमोहन पाहदसिंह सिधेश्वर पाहदसिंह, पुत्र वेली पाहदसिंह मेगही पाहदसिंह पत्नी वली पाहदसिंह निवासी निजगांव
			3411	निजी	सारद- III	0.010	मनु रोउत, अन्तारयामी रोउत पुत्र राधाकृष्ण रोउत, मेनका रोउत पत्नी राधाकृष्ण रोउत निवासी निजगांव
			3092	निजी	सारद- III	0.020	महारंगा प्रधान पुत्र बुधिया प्रधान निवासी निजगांव एस
			1366/6561	निजी	सारद दो फसल- I	0.120	
			3009	निजी	सारद- III	0.070	माधव दलबेहरा पुत्र मुरारी दलबेहरा निवासी निजगांव
			2402	निजी	तईला- I	0.010	
			1540	निजी	सारद- II	0.580	मुलीया साहु पुत्र कान्हेई साहु निवासी निजगांव
			1542/7509	निजी	सारद- III	0.130	
			1541	निजी	सारद- III	0.340	रधुनाथ साहु, कुतरहा साहु पुत्र बिश्वनाथ साहु निवासी निजगांव
			4105	निजी	सारद- III	0.060	
			4118	निजी	सारद- III	0.070	
			3405	निजी	सारद- III	0.030	रामाचन्द्रा रोउत, बालकृष्णा रोउत, हतकिशोर रोउत पुत्र चिंतामणी रोउत निवासी निजगांव
			4305	निजी	सारद- II	0.020	रामा भुतीया पुत्र चिन्तामनी भुतीया निवासी निजगांव
			4098	निजी	तईला- I	0.490	रामा भुतीया लक्ष्मण भुतीया, गतीकृष्णा भुतीया पुत्र चिन्तामनी भुतीया निवासी निजगांव
			4099	निजी	तईला- I	0.180	
			4100	निजी	तईला- I	0.190	
			4302	निजी	सारद- I	0.300	
			4303	निजी	सारद- I	0.150	
			4309	निजी	सारद- II	0.730	
			2996	निजी	घरबारी	0.030	रुकमणी सामन्त पत्नी सची सामन्त निवासी निजगांव
			2997	निजी	सारद- III	0.250	
			2873/6975	निजी	घरबारी	0.040	लोचन मोहन्ती पुत्र परशुराम मोहन्ती निवासी निजगांव



				4040	निजी	सारद-III	0.040	सत्यानन्द बेहरा, नित्यानन्द बेहरा पुत्र बिचित्रा दालबेहरा निवासी निजगांव
				3132	निजी	सारद-III	0.010	
				3133	निजी	तईला-I	0.010	
				1254	निजी	सारद-II	0.040	सदा सामल पुत्र मांगाराज सामल निवासी निजगांव
				1536	निजी	सारद-III	0.240	सनातन साहु, नरहरी साहु बैसतमबा साहु गदाधर साहु, तिरी साहु पुत्र दानेई साहु, देवकी साहु पत्नी दानई साहु निवासी निजगांव
				3401	निजी	तईला-I	0.010	सरस्वती रोउत पत्नी बामदेव रोउत निवासी निजगांव
				1197	निजी	सारद-III	0.120	सरला कुमार सिंह पत्नी नगरी मोहन सिंह निवासी निजगांव
				1364	निजी	सारद दो फसल-I	0.150	सपनेश्वर साहु पुत्र मोहन साहु निवासी निजगांव
				4104	निजी	सारद-III	0.160	
				1457	निजी	सारद-III	0.220	श्याम सुन्दर सिंह पुत्र पदमा चौ सिंह निवासी निजगांव
				2708	निजी	सारद-III	0.040	सिन्धु गोचायात पुत्र दामा गोचायात निवासी निजगांव
				2354	निजी	सारद-II	0.110	सिसीर कुमार सामल पुत्र गोकुलनन्दा सामल, दौपदी सामल पत्नी गोकुलनन्दा सामल, अक्षय कुमार सामल पुत्र दैतारी सामल निवासी निजगांव
				3580	निजी	सारद-III	0.030	विदयाधर सामल पुत्र श्रीधर सामल निवासी निजगांव
				2933	निजी	सारद-III	0.050	श्रीधर सामल पुत्र सोमनाथ सामल, मायाधर सामल पुत्र दिबाकर सामल, निवासी निजगांव
				2935	निजी	सारद-III	0.140	
				2939	निजी	सारद-III	0.020	
				3579	निजी	सारद-III	0.060	श्रीराम गोचायात पुत्र चेमरा गोचायात निवासी निजगांव
				3410	निजी	सारद-III	0.040	सुका रोउत पत्नी गुनानिधि रोउत, बसन्ती रोउत पत्नी बताकृष्णा रोउत, रेबती रोउत पत्नी श्याम सुन्दर रोउत निवासी जोरगदीया
				3550	निजी	सारद-III	0.020	सुकुरु दास कैलाश दास भीमसेन दास पुत्र दवरी दास, गुन्दुरी दास पत्नी दवारी दास निवासी निजगांव
				4116	निजी	सारद-III	0.040	सुभाष चौ साहु बैदुलता साहु पुत्री हरुशी साहु निवासी निजगांव
				2789	निजी	सारद-III	0.060	सुरुची माझी पत्नी सत्यानन्द माझी निवासी निजगांव
				2790	निजी	सारद-III	0.280	
				2791	निजी	सारद-III	0.050	सुरेश चौ माझी पुत्र खेतारासी माझी निवासी निजगांव
				2791/ 6641	निजी	सारद-III	0.050	
				4341	निजी	सारद-III	0.060	सोमनाथ सेठी पुत्र रसानन्दा सेठी, अराखीत सेठी पुत्र नित्यानन्दा सेठी, उपासी सेठी पत्नी गदेई सेठी निवासी निजगांव
				4342	निजी	पतीत	0.120	
				4097	निजी	तईला-I	0.080	
				4293	निजी	तईला-I	0.040	
				4294	निजी	तईला-I	0.240	
				4340	निजी	सारद-III	0.120	
				2403	निजी	घरबारी	0.010	हगुरु दालबेहरा पुत्र बैकन्टा दालबेहरा निवासी निजगांव
				3015	निजी	सारद-III	0.130	
				2408/ 6443	निजी	बाजे फसल-I	0.010	
				1265/6113	निजी	सारद-II	0.100	हगुरु बेहरा पुत्र चक्रधर बेहरा निवासी निजगांव

				1546	निजी	सारद-III	0.290	हत किशोर बेहरा पुत्र अकुल बेहरा निवासी निजगांव
				2946	निजी	तईला-I	0.030	
				2952	निजी	सारद-III	0.020	
				4042	निजी	सारद-III	0.050	हलधर महाखुडा, गोकुली महाखुडा पुत्र उस्ताब महाखुडा निवासी निजगांव
				3026/7678	निजी	सारद-III	0.010	असीना बीबी पत्नी अबदुल अमीदी खान निवासी मेहेन्दीपुर पी एस चान्दनीचौक जिला कटक
				3033	निजी	सारद-III	0.280	हदीकन्धु सेठी, दामा सेठी पुत्र मदन सेठी निवासी निजगांव
				4121	निजी	सारद-III	0.210	
				4290	निजी	तईला-I	0.010	
				4291	निजी	तईला-I	0.030	
				4295	निजी	तईला-I	0.080	
				4296	निजी	तईला-I	0.020	
				4297	निजी	तईला-I	0.850	
				4299	निजी	सारद-II	0.260	
				4300	निजी	सारद-II	0.200	
				4339	निजी	सारद-III	0.870	
				2387	निजी	घरबारी	0.030	हर महाराणा पत्नी बन्धा महाराणा, भरमार महाराणा कुमार महाराणा रबी महाराणा पुत्र कास्तु महाराणा निवासी निजगांव
				1448	निजी	पतीत	0.010	हेमन्त कुमार सिंह पुत्र महेश्वर सिंह, लिंगराज सिंह, सुन्दर राजन सिंह, प्रदीपता कुमार सिंह, पुत्र बसन्त कुमार सिंह, अधार सिंह पत्नी बसन्त कुमार सिंह, तनु सिंह पत्नी सरत कुमार सिंह, पंकाजीनि सिंह, सुदामिनी सिंह, नीरंजिनी सिंह पुत्र/पुत्री सरद कुमार सिंह, लोकनाथ सिंह पुत्र हरुदानन्दा सिंह निर्मानन्द सिंह पुत्र शशी भूषण सिंह
								दुर्याधन सिंह, नराण सिंह, बिभुती सिंह पुत्र बहामानन्द सिंह, सवित्री सिंह पत्नी बहामानन्द सिंह, भगवान सिंह, बिरबान सिंह, श्रीकान्ता सिंह पुत्र जनक सिंह, प्रमानन्द सिंह, सुखनन्द सिंह, गगन बिहारी सिंह पुत्र उछन सिंह, मनत्री सिंह, रमेश सिंह, साउरी सिंह पुत्र जोगेश्वर सिंह, नागीरमोहन सिंह पुत्र श्रीकमुखा सिंह, रासनन्दा सिंह, सदानन्दा सिंह पुत्र दुल्लाव सिंह अंतरा सिंह, पुत्र ससोदेव सिंह, कान्दर्पा सिंह पुत्र दिबाकर सिंह, श्याम सुन्दर सिंह
								भास्कर सिंह, सुधाकर सिंह, रुसी कुमार सिंह पुत्र पदम चौ सिंह, बैसतामबा चौ साहु पुत्र डेनी साहु निवासी निजगांव, दखल, हेमन्त कुमार सिंह, लिंगराज सिंह, सुन्दर राजन सिंह, अधार सिंह, तनु सिंह, पंकाजीनी सिंह, सुदामिनी सिंह, निरंजनी सिंह, श्याम सुन्दर सिंह, भास्कर सिंह, सुधाकर सिंह, रुसी कुमार सिंह लोकनाथ सिंह
				1459	निजी	सारद-III	0.100	हेमन्त कुमार सिंह पुत्र महेश्वर सिंह, लिंगराज सिंह, सुन्दर राजन सिंह, प्रदीपता कुमार सिंह, पुत्र बसन्त कुमार सिंह, अधार सिंह पत्नी बसन्त कुमार सिंह, तनु सिंह पत्नी सरत कुमार सिंह, पंकाजीनि सिंह, सुदामिनी सिंह, नीरा सिंह पुत्र/पुत्री सरद कुमार सिंह, लोकनाथ सिंह पुत्र हरुदानन्द सिंह
				2800	निजी	सारद-III	0.460	श्याम सुन्दर सिंहा सुधाकर सिन्हा, भास्कर सिन्हा, रुसीकु सिन्हा, पुत्र पदमाचरण सिन्हा, मनमोहन पहाड़, सिधुश्वर पहाडा पुत्र वली पहाड, सदर बेहेरा, केशव बेहेरा,

							गदाधर बेहरा पुत्र बाटा कृष्णा बेहेरा , किशोर राणा, ईश्वर राधा गोकुल राधा, पचु राणा, पुत्र ईश्वर राणा निवासी निजगांव
			2958 / 7456	निजी	सारद- III	0.090	
			1458	निजी	सारद- III	0.220	
			2374	निजी	सारद- III	0.020	बचन दलबेहेर पत्नी उमेश चौ दलेबेहेर निवासी निजगांव
			1361	निजी	सारद दो फसल- I	0.170	सपनेश्वर बेहरा पुत्र कपील बेहरा निवासी निजगांव
			2924	निजी	घरबारी	0.120	दिनेश चौ दास पुत्र गोपाल चौ दास निवासी मरलचेर टाउन पी एस तलचेर
			1378	निजी	सारद- III	0.070	ईश्वर राणा पुत्र. इन्द्रमनी राणा निवासी निजगांव
			1415	निजी	तईला- I	0.070	
			3044/ 6237	निजी	पतीत	0.050	सहदेव सेठी पुत्र बिक्रम सेठी निवासी निजगांव
			3027	निजी	घरबारी	0.030	सनातन दास पुत्र बसन्त कुमार दास निवासी मंगलपुर पी एस मोटांगा
			3028	निजी	घरबारी	0.030	
			3026	निजी	घरबारी	0.060	रुपेश्री नाथ पत्नी सत्यानन्द नाथ निवासी कुसापांगा, पी एस मोटांगा
			3012	निजी	सारद- III	0.020	दमबारुधर सामल पुत्र नन्दी सामल निवासी निजगांव
			2925	निजी	सारद- III	0.060	माधव कुमार सामल पुत्र जनार्दन सामल निवासी दाशनली
			3134	निजी	सारद- III	0.040	पियुषकान्ती मोहुरी पुत्र राज कुमार माहुरी निवासी अंगुल टाउन
			1327	निजी	सारद- II	0.020	भरत गोचायत पुत्र कालिया गोचायत निवासी निजगांव
			3092/ 6558	निजी	सारद- III	0.080	जगबन्धु साहु राज किशोर साहु, पंचानान साहु पुत्र जटाधरी निवासी निजगांव
			3404/ 6292	निजी	सारद- III	0.010	ज्योतसनारानी रोउत पत्नी करुणाकर रोउत निवासी जोरगदीया
			3132/ 8063	निजी	सारद- III	0.020	माधव चौ गरनाईक पुत्र बैन्सीधर गरनाईक निवासी लिंगाराकता तालचेर
			3133/ 8064	निजी	तईला- I	0.060	
			2997/ 7871/ 8379	निजी	घरबारी	0.060	संतोष कुमार मंगाराज पुत्र नब किशोर नायक निवासी अनुयारी पी एस बिदेश्वर जिला कटक
			1412	निजी	सारद दो फसल- I	0.170	नित्यनन्द साहु पुत्र सनातन साहु निवासी निजगांव
			3587/ 6981	निजी	सारद- III	0.100	दुल्लीया गोचायत पुत्र सुकरु गोचायत निवासी निजगांव
			2929	निजी	घरबारी	0.050	माधव कुमार सामल पुत्र जनार्दन सामल निवासी दशनली पी एस तालचेर
			3404/ 6277	निजी	घरबारी	0.040	पदमा चौ नायक, गीरिश चौ नायक, शीशीर कुमार नायक, प्रदीप कुमार नायक पुत्र चितन्या नायक निवासी कुशपांगा पी एस मोटांगा
			2997/7864	निजी	घरबारी	0.075	मिन्ती मुदुली पत्नी धनेश्वर मुदुली निवासी बोन्दा
			3010	निजी	घरबारी	0.020	चाहती सामल पत्नी दामबारु सामल निवासी निजगांव
			3591	निजी	सारद- III	0.010	रमेश चौ सामल गंगाधर सामल सुधीर कुमार सामल पुत्र अधिकारी सामल निवासी खारंगप्रसाद पी एस मोटांगा
			3588	निजी	घरबारी	0.020	अंजली सामल पत्नी रमेश चौ सामल गीतांजली सामल पत्नी गंगाधर सामल, अबान्ती सामल पत्नी सुधीर कुमार सामल निवासी खाडगप्रसाद
			3008	निजी	सारद- III	0.020	प्रकाश कुमार साहु पुत्र प्रहालाद साहु निवासी तलताली
			3016	निजी	घरबारी	0.050	मंजुलता समान्त पत्नी गोपाबन्धु समान्त, निवासी संजापांडा

			4348	निजी	तईला-।	0.380	कुमुदीनी पानीगरही पत्नी सकयासिंह पाल निवासी गोतमरा
			3134/ 7190	निजी	सारद-।।।	0.030	खीरा सागर बेहरा पुत्र सिधेश्वर बेहरा निवासी नुहता
			3398	निजी	तईला-।	0.010	खयमा सागर बेहरा पुत्र सिधेश्वर बेहरा निवासी निजंगाव
			1312	निजी	सारद-।।	0.160	करुण सागर बेहरा पुत्र सिधेश्वर बेहरा निवासी निजंगाव
			3161/ 7197	निजी	तईला-।	0.080	विषणुप्रिया डांग पुत्री सिधेश्वर बेहरा निवासी निजंगाव
			3273	निजी	तईला-।	0.060	विषणुप्रिया डांग पुत्री सिधेश्वर बेहरा निवासी निजंगाव
			1543/ 8498	निजी	सारद-।।।	0.160	सुबल भुतीया पुत्र जयराम भुतीया निवासी निजंगाव
			1543/ 8510	निजी	सारद-।।।	0.160	नन्द किशोर भुतीया पुत्र कुसदवाजा भुतीया निवासी निजंगाव
			1543/ 8511	निजी	सारद-।।।	0.120	गोरंगा भुतीया पुत्र नब किशोर भुतीया निवासी नुहता
			1543/ 8521	निजी	सारद-।।।	0.070	गोरंगा भुतीया पुत्र नब किशोर भुतीया निवासी नुहता
			1543/ 8528	निजी	सारद-।।।	0.040	सुकुरु भुतीया पुत्र नब किशोर भुतीया निवासी निजंगाव
			1543/ 8529	निजी	सारद-।।।	0.070	सुकुरु भुतीया पुत्र नब किशोर भुतीया निवासी निजंगाव
			1543/ 8535	निजी	सारद-।।।	0.050	बरुनदाबन भुतीया पुत्र भगीरथी भुतीया निवासी निजंगाव
			1548	निजी	सारद-।।	0.010	राहस भुतीया पुत्र भगीरथी भुतीया निवासी निजंगाव
			1543/8549	निजी	सारद-।।।	0.020	अकरुर भुतीया पु. भगीरथी भुतीया निवासी निजंगाव
			1543/8550	निजी	सारद-।।।	0.110	अकरुर भुतीया पु. भगीरथी भुतीया निवासी निजंगाव
			1539	निजी	सारद-।।	0.380	अजाती भुतीया पुत्र भाबगरही भुतीया निवासी निजंगाव
			1543	निजी	सारद-।।।	0.010	अजाती भुतीया पुत्र भाबगरही भुतीया निवासी निजंगाव
			3399/7155	निजी	तईला-।	0.020	ब्रजबंधु धीर, सुभेन्दु धीर, पुत्र- करुणाकर धीर, रसमजरी धीर, पत्नी- ब्रजबंधु धीर, गांव- निजंगाव
			1365	निजी	सारद दो फसल-।	0.580	महादेई बेहेरा पत्नी महादेव बेहेरा निवासी निजंगाव
			2796/8606	निजी	सारद-।।।	0.030	प्रफुल्ला सामल, संतोष सामल पुत्र गीरिश चौ सामल निवासी निजंगाव
			2796	निजी	सारद-।।।	0.190	बिजय कुमार सामल पुत्र सिधेश्वर सामल निवासी निजंगाव
			2797	निजी	सारद-।।।	0.090	बिजय कुमार सामल पुत्र सिधेश्वर सामल निवासी निजंगाव
			3603	निजी	घरबारी	0.040	बिजय कुमार धीर पु. चक्रधर धीर निवासी निजंगाव
			3603/6138	निजी	घरबारी	0.100	बिजय कुमार धीर पु. चक्रधर धीर निवासी निजंगाव
			3400/ 7706	निजी	तईला-।	0.030	सुरेश चौ नायक पुत्र मायाधर नायक निवासी निजंगाव
			3049	निजी	सारद-।।	0.080	बिमलेन्दु मोहन्ती पुत्र पदमा चौ मोहन्ती निवासी खारबेलनगर भुवनेश्वर
			3048	निजी	सारद-।।	0.090	बिमलेन्दु मोहन्ती पुत्र पदमा लोचन मोहन्ती निवासी खारबेलनगर भुवनेश्वर
			1251	निजी	सारद-।।	0.070	मिटु गोचायत पुत्र कुर्ति गोचायत निवासी कांदासर
			3170	निजी	घरबारी	0.040	चिनमाई रथ पत्नी मानश रांजन रथ निवासी निजंगाव
			2921	निजी	सारद-।।।	0.070	मधुचन्दा घाल पत्नी सरोज घाल निवासी निजंगाव
			3273/ 8403	निजी	तईला-।	0.035	राधेश्याम बेहेरा पुत्र कृपासागर बेहेरा निवासी निजंगाव
			1294	निजी	सारद-।।	0.160	भरत चौ साहु पुत्र गंदाधर साहु निवासी निजंगाव
			2956	निजी	सारद-।।	0.100	बिषणु चौ धीर पुत्र अर्न्तयामी धर निवासी निजंगाव
			2957	निजी	तईला-।	0.010	सुपाला धीर पुत्री अर्न्तयामी धीर निवासी निजंगाव

			2953	निजी	तईला-।	0.010	विष्णु चौ धीर पुत्र बिचीत्रानन्द धीर, बिभु राजन धीर पुत्र अर्न्तयामी धीर, अशोक कुमार धीर, अनील कुमार धीर, अश्वनी कुमार धीर, अंजान कुमार धीर पुत्र बहामानन्द धीर, अबानी धीर, आरती धीर, अशा धीर, अलका धीर पुत्री पवित्रा धीर पुष्पालता धीर पत्नी पवित्रा धीर निवासी निजंगाव
			1543/8545	निजी	सारद-।।।	0.070	नर्मदा स्वाईन पत्नी लक्ष्मण स्वाईन निवासी निजंगाव
			3030	निजी	घरबारी	0.040	सुधाकर साहु, मनोरंजन साहु पुत्र बलराम साहु, निवी निजगढ तालचेर टाउन
			1298	निजी	सारद-।।	0.310	सुजन वारीक पुत्र हाडीबन्धु बरीक निवासी निजंगाव
			1544/ 8855	निजी	सारद-।।।	0.180	ठक साहु पुत्र कुतरथा साहु निवासी निजंगाव
			3168/ 7101	निजी	घरबारी	0.040	बिमलेन्दु मोहन्ती पुत्र पदमा चौ मोहन्ती निवासी प्लाट संख्या 264 खारबेलनगर भुवनेश्वर
			3169	निजी	घरबारी	0.010	
			3168	निजी	घरबारी	0.010	
			1451	निजी	सारद-।।	0.010	गतीकृष्णा सिंह पुत्र श्याम सुन्दर सिंह निवासी निजंगाव
			2937	निजी	सारद-।।।	0.140	बेनुधर सामल पुत्र गीरिश चौ सामल निवासी बुधापांका
			2936	निजी	सारद-।।।	0.100	बेनुधर सामल कुमुदा सामल पुत्र गीरिश चौ सामल निवासी बुधापांका
			1195	निजी	सारद-।।।	0.040	देबराज सिंह ईकादसीया सिंह, रबी नारायण सिंह पुत्र श्रीराम सिंह निवासी निजंगाव
			3274	निजी	तईला-।।	0.080	बरजाबन्धु बरीक, बलभद्र बरीक पुत्र गंगाधर बरीक निवासी निजंगाव
			3273/ 8835	निजी	तईला-।	0.050	यामलेन्दु बिश्वाल पुत्र मनगलु चौ बिश्वाल निवासी बनारपाल
			3275	निजी	सारद-।।।	0.010	सुजान बरीक पुत्र हदिबन्धु बरीक निवासी निजंगाव
			1449	निजी	घरबारी	0.070	सत्यानन्द नाईक पुत्र कैलाश चौ नायक निवासी गैलो पी एस पारजांगा
			3130	निजी	सारद-।।।	0.020	नल्लिनी भगता पत्नी भुक्ता चौ भगता, निवासी तुमुगुला पी ए सामल
			1377	निजी	सारद-।।।	0.120	श्याम सुन्दर सेठी पुत्र बताकृष्णा सेठी निवासी निजंगाव
			3020	निजी	सारद-।।।	0.040	रजंन कुमार बेयुरा पुत्र प्रहालाद चौ बेयुरा निवासी बुधापांका
			3020/ 6449	निजी	सारद-।।।	0.020	
			1544	निजी	सारद-।।।	0.100	पदमा चौ बेहरा पुत्र कुंजा बेहरा निवासी बनरपाल
			4048	निजी	सारद-।।।	0.060	
			4049	निजी	सारद-।।।	0.350	
			3273/9261	निजी	तईला-।	0.040	गनेश्वर साहु पुत्र ईकदुसीया साहु निवासी तालमुल पाटना
			4094	सरकारी	उन्नत योजना जोग्य	0.060	अबाद जोग्य अनाबादी
			2368	सरकारी	रास्ता	0.200	सर्वसाधारण
			3002	सरकारी	रास्ता	0.020	सर्वसाधारण
			3044	सरकारी	रास्ता	0.050	सर्वसाधारण
			3045	सरकारी	रास्ता	0.040	सर्वसाधारण
			3633	सरकारी	रास्ता	0.050	सर्वसाधारण
			1428	सरकारी	रास्ता	0.150	सर्वसाधारण
			1416	सरकारी	बस्ती जोग्य	0.020	रखीत
			2355	सरकारी	गोचर	0.020	रखीत
			2356	सरकारी	आडी	0.010	रखीत
			2367	सरकारी	जलास्य-।।	0.130	रखीत
			2874	सरकारी	नयनजोरी	0.050	रखीत

			2875	सरकारी	नयनजोरी	0.050	रखीत
			2967	सरकारी	नयनजोरी	0.040	रखीत
			2968	सरकारी	रास्ता	3.200	रखीत
			2969	सरकारी	नयनजोरी	3.650	रखीत
			3380	सरकारी	नयनजोरी	0.530	रखीत
			3381	सरकारी	रास्ता	0.300	रखीत
			3383	सरकारी	नयनजोरी	4.480	रखीत
			4087	सरकारी	नयनजोरी	0.100	रखीत
			4088	सरकारी	रास्ता	0.100	रखीत
			4091	सरकारी	पुरातन पतीत	0.010	रखीत
			4095	सरकारी	पुरातन पतीत	0.030	रखीत
			4096	सरकारी	उन्नत योजना जोग्य	0.070	रखीत
			4119	सरकारी	रास्ता	0.020	रखीत
			4120	सरकारी	रास्ता	0.100	रखीत
			4145	सरकारी	पानी नाला	0.300	रखीत
			4334	सरकारी	गोचर	0.240	रखीत
			4335	सरकारी	गोचर	0.050	रखीत
			4337	सरकारी	गोचर	0.010	रखीत
			4343	सरकारी	गोचर	0.200	रखीत
			4346	सरकारी	गोचर	0.010	रखीत
			4349	सरकारी	गोचर	0.070	रखीत
			4350	सरकारी	गोचर	2.960	रखीत
			2367/ 6411	सरकारी	जलास्य- II	0.030	रखीत
			3395/ 7809	सरकारी	रास्ता	0.050	रखीत
			3408/ 7810	सरकारी	रास्ता	0.040	रखीत
			3409/ 7811	सरकारी	रास्ता	0.050	रखीत
			3403/7812	सरकारी	रास्ता	0.120	रखीत
			3401/7815	सरकारी	रास्ता	0.220	रखीत
			3404/7383	सरकारी	रास्ता	0.030	रखीत
			3399/ 7813	सरकारी	रास्ता	0.200	रखीत
			3400/ 7814	सरकारी	रास्ता	0.010	रखीत
			3400/ 7154	सरकारी	रास्ता	0.060	रखीत
			3404/ 6285/ 7399 / 7816	सरकारी	रास्ता	0.050	रखीत
			3399/ 7157	सरकारी	रास्ता	0.240	रखीत
			3404/ 6287/ 7817	सरकारी	रास्ता	0.030	रखीत
			3404/ 6286/ 7818	सरकारी	रास्ता	0.030	रखीत
			3404/ 6292/ 7819	सरकारी	रास्ता	0.040	रखीत
			3405/ 7821	सरकारी	रास्ता	0.100	रखीत
			3273/ 7822	सरकारी	रास्ता	0.400	रखीत
			3398/ 7823	सरकारी	रास्ता	0.030	रखीत
			3404/6293/ 7824	सरकारी	रास्ता	0.040	रखीत
			3399/ 7155/ 7825	सरकारी	रास्ता	0.200	रखीत
			3274/ 7826	सरकारी	रास्ता	0.040	रखीत
			3404/ 6277/ 7827	सरकारी	रास्ता	0.060	रखीत

[फा. सं. भाराराप्रा / 11013 / प.का.ई / सम्बलपुर / ओड़ीशा / रा.रा.-42 / अधिसूचना / 3(घ)]

वी. कृष्णस्वामी, उप-सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th March, 2014

**S.O. 698(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number SO 601 (E) dated the 11<sup>th</sup> March, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No. 42 on the stretch of land from Km. 88.000 to Km.112.000 (Cuttak - Angul Section) in District Angul in the state of Odisha;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Sambad” and “Dharitri” both dated the 4<sup>th</sup> April, 2013, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedules should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedules shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of land to be acquired with or without structure falling the stretch of land from Km. 88.000 Km. 112.000 (Cuttack to Angul section) of the National Highway No. 42 in the state of Odisha.

Serial Number	Name of the district	Name of the taluk / tehasil	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in acres)	Name of the owner / interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angul	1. Baanrpal	(1) Joragaria	(Chaka No.51) 86	Private	Agriculture	0.730	Antaryami Dhir, S/o. Kinu Dhir, Vill : Nuata
				(Chaka No.52) 88	Private	Agriculture	3.960	
				(Chaka No.109) 169	Private	Agriculture	0.510	Karunakar Rout, S/o. Bali Rout, Bijuli Rout, W/o. Bali Rout, Bainshidhar Rout, S/o. Ekadasi Rout, Rabi Rout, Chhabi Rout, Pabi Rout, S/o. Banambar Rout, Ahalya Rout, W/o. Banambar Rout, Kumar Rout, S/o. Panchu Rout, Guru Charan Rout, S/o. Kapila Rout, Jhumpei Rout, W/o. Kapila Rout, Akula Rout, Nakula Rout, Bhajaman Rout, S/o. Pandaba Rout, Mangaraj Rout, S/o. Prasadi Rout, Baidehi Rout, W/o. Kathi Rout, Vill : Joragaria
				(Chaka No.50) 84	Private	Agriculture	0.170	Niladri Samal, S/o. Bairagi Samal, Vill : Nizigaon

				(Chaka No.49) 83	Private	Agriculture	0.060	Purna Chandra Nayak, Ramesh Chandra Nayak, S/o. Dasarathi Nayak, Mulia Nayak, S/o. Rama Chandra Nayak, Bholeswar Samal, Benudhar Samal, S/o. Rasananda Samal, Hema Samal, W/o. Rasananda Samal Vill : Nizigaon
				75	Govt.	Rasta	0.110	Sarbasadharana
				85	Govt.	Rasta	1.110	Sarbasadharana
				87	Govt.	Sarbasadharan Jogya	0.150	Rakhita
				168	Govt.	Gochar	0.050	Rakhita
				170	Govt.	Gochar	2.780	Rakhita
		(2) Nuata	2956/7693		Private	Sarada-II	0.230	Akshya Kumar Samal, S/o. Daitari Samal Vill : Nizigaon
				4045	Private	Sarada-III	0.250	Athani Sahu, S/o. Chandramani Sahu, Vill : Nizigaon
				2351	Private	Gharabari	0.040	Adwait Pradhan, Sita Pradhan, Julujuli Pradhan, S/D/o. Dhobei Pradhan, Pana Pradhan, W/o. Dhobei Pradhan, Vill : Nizigaon
				2352	Private	Gharabari	0.040	
			2408/ 6442		Private	Baje Fasala-I	0.010	Isvar Dalbehera, Hrusi Dalbehera, Bharat Dalbehera, S/o. Dhruba Dalbehera, Vill : Nizigaon
				4050	Private	Sarada-III	0.090	Udayanath Khilar, Hrudananda Khilar, Brundaban Khilar, S/o. Bhikari Khilar, Vill : Nizigaon
				1326	Private	Sarada-II	0.100	Karuna Gochhayat, S/o. Chemutu Gochhayat, Vill : Nizigaon
				1535	Private	Sarada-III	0.300	
			3601/6643		Private	Gharabari	0.020	Kastu Behera, S/o. Jaga Behera, Vill : Nizigaon
				2353	Private	Sarada-II	0.130	Kartika Pradhan, S/o. Somanath Pradhan, Vill : Nizigaon
				3412	Private	Sarada-III	0.010	Kartikeswar Rout, S/o. Daya Rout, Vill : Nizigaon
				1456	Private	Sarada -III	0.070	Kunja Bihari Majhi, Karkanda Majhi, S/o. Adhikari Majhi, Vill : Nizigaon
				1537	Private	Sarada -III	0.120	
				2993	Private	Gharabari	0.010	Kunu Naik, S/o. Khaira Naik, Vill : Nizigaon
			3016/ 6167		Private	Sarada-III	0.070	Kulamani Sahu, S/o. Panchu Sahu, Vill : Nizigaon
				1264	Private	Sarada - II	0.080	Kailash Gochhayat, S/o. Nityananda Gochhayat, Vill : Nizigaon
				2372	Private	Sarada-III	0.110	Kailash Samal, Govinda Samal, Kishore Samal, S/o. Nityananda Samal, Bhanumati Samal, W/o. Nityananda Samal, Vill : Nizigaon
				2795	Private	Sarada-III	0.030	
				2792	Private	Bagayat -II	0.320	Kailash Samal, Govinda Samal, Kishore Samal, S/o. Nityananda Samal, Bhanumati Samal, W/o. Nityananda Samal, Girish Ch. Samal, Sidheswar Samal, S/o. Chintamani Samal, Brahmananda Samal, S/o. Ghana Samal, Vill : Nizigaon
				2787	Private	Sarada-III	0.130	Khirod Majhi, S/o. Dambarudhar Majhi, Vill : Nizigaon



				2415	Private	Baje Fasala-I	0.060	Goutam Pradhan, Bijaya Pradhan, Manu Pradhan, S/o. Hrusikesh Pradhan, Raibari Pradhan, W/o. Hrusikesh Pradhan, Vill : Nizigaon
				3567	Private	Sarada -III	0.030	Ganga Gochhayat, S/o. Bida Gochhayat, Vill : Nizigaon
				1450	Private	Sarada-II	0.180	Gatikrushna Singh, S/o. Shyama Sundar Singh, Vill : Nizigaon
				1245	Private	Sarada-III	0.400	Gandharba Gochhayat, S/o. Dhenga Gochhayat, Vill : Nizigaon
				3602	Private	Sarada-III	0.040	Girish Samal, Sabitri Samal, S/D/o. Gokulananda Samal, Droupadi Samal, W/o. Gokulananda Samal, Akshya Kumar Samal, S/o. Daitari Samal, Hrusikesh Behera, S/o. Tirtha Behera, Vill : Nizigaon, Narayan Nanda, S/o. Damodar Nanda, Vill : Balarampur, P.S. : Motanga, Lalita Mohan Dhir, Chakradhar Dhir, Mantri Dhir, Khetrabasi Dhir, S/o. Jogeswar Dhir, vill : Nizigaon
				3604	Private	Sarada-III	0.150	
				3604/ 6139	Private	Sarada-III	0.010	
				4093	Private	Taila - I	0.180	Giridhari Sahu, S/o. Panchu Sahu, Vill : Nizigaon
				4108/ 6729	Private	Sarada-III	0.060	
				4092/ 6735	Private	Sarada -III	0.050	
				4310	Private	Sarada - II	0.070	Govinda Sahu, S/o. Akula Sahu, Vill : Nizigaon
				4108/ 6728	Private	Sarada - III	0.050	
				4093/ 6740	Private	Taila -I	0.140	
				1452	Private	Sarada-III	0.100	Gourahari Majhi, S/o. Trigada Majhi, Vill : Nizigaon
				1453	Private	Sarada-III	0.010	
				2791/ 6640	Private	Sarada-III	0.060	
				3408	Private	Sarada-III	0.030	Chanchala Rout, Goji Rout, D/o. Magata Rout, Vill : Joragadia
				4103	Private	Taila - II	0.030	Chatrughuja Sahu, S/o. Khetra Sahu, Vill : Nizigaon
				4108	Private	Sarada -III	0.140	
				4093/ 6739	Private	Taila - I	0.070	
				2386	Private	Gharabari	0.010	Chandrasekhar Bhoi, S/o. Bati Bhoi, Vill : Nizigaon
				3601/ 6642	Private	Gharabari	0.020	Chandramani Behera, S/o. Jaga Behera, Vill : Nizigaon
				3600	Private	Sarada -III	0.030	Chandri Pradhan, W/o. Goutam Pradhan, Vill : Nizigaon
				1253	Private	Sarada -II	0.260	Chhabi Gochhayat, S/o. Nakula Gochhayat, Vill : Nizigaon
				1263/ 6110	Private	Sarada -II	0.240	
				2961/ 7454	Private	Sarada-III	0.160	Chhabi Dalbehera, S/o. Kulamani Dalbehera, Vill : Nizigaon
				1265	Private	Sarada-II	0.230	Jatia Mahalik, S/o. Barju Mahalik, Vill : Nizigaon
				1311	Private	Sarada-III	0.180	
				1304	Private	Sarada-II	0.180	Jadunath Sethi, S/o. Kanhei Sethi, Raibari Sethi, W/o. Kanhei Sethi, Vill : Nizigaon
				1309	Private	Sarada-II	0.070	
				4298	Private	Taila -I	0.550	
				1304/ 6112	Private	Sarada-II	0.080	

				3599	Private	Sarada-III	0.040	Jaladhar Mahakhuda, S/o. Nata Mahakhuda, Vill : Nizigaon
				4117	Private	Sarada-III	0.180	Joginath Sahu, S/o. Upendra Sahu, Vill : Nizigaon
				4093/ 6736	Private	Taila -I	0.040	
				4093/ 6737	Private	Taila -I	0.120	
				4103/ 6738	Private	Taila -I	0.020	
				1269	Private	Sarada-II	0.040	Jogeswar Dhir, Kalia Dhir, S/o. Pitabash Dhir, Hrusi Dhir, Prasanna Dhir, S/o. Kalia Dhir, Vill : Nizigaon
				1363	Private	Sarada-I	0.140	
				3270	Private	Taila -I	0.020	
				3271	Private	Taila - I	0.010	
				2959	Private	Sarada-III	0.240	Tankadhar Singh, S/o. Bhaskar Singh, Vill : Nizigaon
				2960	Private	Sarada-III	0.030	
				1529	Private	Sarada-II	0.040	Tankadhar Singh, Bidyadhar singh, Gadadhar Singh, Pitambar singh, Digambar Singh, S/o. Bhaskar Singh, Vill : Nizigaon
				2958	Private	Sarada-III	0.020	
				3032	Private	Sarada-III	0.050	Dama Sethi, S/o. Madan Sethi, vill : Nizigaon
				3011	Private	Sarada-III	0.070	Dambarudhar Samal, S/o. Nandi Samal, Vill : Nizigaon
				2961/ 7451	Private	Sarada-III	0.060	
				3556	Private	Sarada-III	0.280	Dambarudhar Rout, Sada Rout, Gada Rout, Bamadev Rout, Dandadhar Rout, S/o. Keshab Rout, Tanu Rout, W/o. Keshab Rout, Jogeswar Rout, Sanatan Rout, S/o. Ananda Rout, Chandramani Rout, Gumani Rout, Hada Rout, S/o. Mahi Rout, Vill : Nizigaon
				3559	Private	Gharabari	0.020	
				3563	Private	Taila -II	0.010	
				1381	Private	Sarada-III	0.020	Trilochan Pani, S/o. Dasarathi Pani, Vill : Nizigaon
				3409	Private	Sarada-III	0.030	Dayanidhi Sahu, S/o. Brahmananda Sahu, Vill Joragadia
				4298/ 6662	Private	Taila - I	0.140	Dama Sethi, S/o. Dangi Sethi, Vill : Nizigaon
				1258	Private	Sarada-II	0.020	Dasarathi Samal, S/o. Budhia Samal, Vill : Nizigaon
				1460	Private	Sarada Do Fasali-I	0.260	Dinabandhu Majhi, S/o. Ainthu Majhi, Vill : Nizigaon
				1462	Private	Sarada -I	0.420	
				2780	Private	Sarada-III	0.030	
				1408	Private	Sarada Do Fasali-I	0.180	Sri Nilakantheswar Mahadev Bije Nizigaon Marfat Hemanta Kumar Singh, S/o. Maheswar Singh, Vill : Nizigaon
				1463/ 6786	Private	Sarada-I	0.200	Duryodhan Singh, Narana Singh, Bibhuti Singh, S/o. Brahmananda Singh, Sabitri Singh, W/o. Brahmananda Singh, Vill : Nizigaon
				3273/ 7208	Private	Taila - I	0.150	Debakrushna Behera, S/o. Dambaru Behera, Vill : Nizigaon
				3161	Private	Taila - I	0.070	
				3399	Private	Taila - I	0.070	Debaraj Behera, S/o. Benudhar Behera, Vill : Nizigaon
				3164/ 7100	Private	Taila - I	0.010	

				1252	Private	Sarada-II	0.060	Debaraj Gochhayat, S/o. Chandra Gochhayat, Vill : Nizigaon
				3403/ 6299	Private	Gharabari	0.010	Dorabasa Rout, S/o. Tankadhar Rout, Vill Joragadia
				2994	Private	Sarada - III	0.030	Dhaneswar Barik, S/o. Krushna Barik, Malati Barik, W/o. Krushna Barik, Vill : Nizigaon
				1366	Private	Sarada Do Fasali - I	0.150	Dharmu Gochhayat, S/o. Benudhar Gochhayat, Vill : Nizigaon
				2995	Private	Gharabari	0.080	Nayani Samant, W/o. Brhmananda Samant, Vill : Nizigaon
				2876	Private	Gharabari	0.100	Nandi Samal, Sadananda Samal, Sashadev Samal, Satyananda Samal, S/o. Mangaraj Samal, Vill : Nizigaon
				2877	Private	Gharabari	0.030	
				2947	Private	Sarada - II	0.310	
				2948	Private	Sarada - III	0.270	
				1410	Private	Sarada Do Fasali-I	0.020	Narahari Behera, S/o. Damodar Behera, Vill : Nizigaon
				4104/ 7423	Private	Sarada - III	0.080	Naresh Sahu, S/o. Murali Sahu, Rangei Sahu, W/o. Murali Sahu, Vill : Nizigaon
				1194	Private	Sarada -III	0.040	Nagari Mohan Singh, S/o. Srimukha Singh, Vill : Nizigaon
				1379	Private	Sarada - III	0.030	Narana Pani, Narottam Pani, Naba Kishore Pani, S/o. Biswanath Pani, Vill : Nizigaon
				1418	Private	Sarada-I	0.300	Nityananda Dhir, Paramananda Dhir, S/o. Biswanath Dhir, Nimai Charan Behera, S/o. Kalyan Behera, Vill : Nizigaon
				1413	Private	Sarada Do Fasali-I	0.240	Nirmala Kumar Behera, Kamala Lochan Behera, Rajanikanta Behera, Saroj Kumar Behera, Manoj Behera, S/o. Prafulla Kumar Behera, Vill : Nizigaon
				1463	Private	Sarada-I	0.040	Nimananda Singh, S/o. Sashi Bhusan Singh, Vill : Nizigaon
				2878	Private	Gharabari	0.040	Nilakantha Samal, Athani Samal, Bhikari Samal, S/o. Iswar Samal, Bachana Samal, W/o. Iswar Samal, Vill : Nizigaon
				2951/ 6989	Private	Sarada-III	0.020	
				2918	Private	Sarada-III	0.050	
				1243	Private	Sarada-III	0.230	Nukei Gochhayat, S/o. Magata Gochhayat, Vill : Nizigaon
				2414	Private	Baje Fasala-I	0.060	Panchu Dalbehera, S/o. Angada Dalbehera, Vill : Nizigaon

				2409	Private	Baje Fasala-II	0.010	Panchu Dalabehera, Budhia Dalbehera, S/o. Angada Dalbehera, Raj Kishore Dalbehera, Umesh Dalbehera, Chhabi Dalbehera, S/o. Kulamani Dalbehera, Sambari Dalbehera, W/o. Hari Dalbehera, Rama Dalbehera, Laxman Dalbehera, Bharat Dalbehera, Satrugan Dalbehera, S/o. Arjuna Dalbehera, Subarna Dalbehera, W/o. Arjuna Dalbehera, Iswar Dalbehera, Rusi Dalbehera, Bharat Dalbehera, S/o. Dhruva Dalbehera, Haguru Dalbehera, S/o. Baikuntha Dalbehera, Pravakar Dalbehera, Umesh Dalbehera, Cheru Dalbehera, S/o. Srichandan Dalbehera, Bijaya Dalbehera, Bijuli Dalbehera, S/D/o. Lalita Dalbehera, Banki Dalbehera, W/o. Lalita Dalbehera, Nilamani Dalbehera, Nanda Dalbehera, S/o. Banu Dalbehera, Madhaba Dalbehera, S/o. Murali Dalbehera, Vill : Nizigaon
				3549	Private	Rasta	0.030	Padma Ch. Rout, Kartikeswar Rout, S/o. Daya Rout, Manu Rout, Antaryami Rout, S/o. Radhakrushna Rout, Menaka Rout, W/o. Radha Krushna Rout, Vill : Nizigaon
				1413/ 6953	Private	Sarada Do Fasali-I	0.220	Prasanti Behera, W/o. Manash Ranjan Behera, Vill : Nizigaon
				3162	Private	Taila -I	0.010	
				3165	Private	Taila -I	0.010	
				3400	Private	Taila - I	0.010	
				1242	Private	Sarada-III	0.300	Paramananda Nanda, S/o. Gatikrushna Nanda, Vill : Angul Town
				3564	Private	Taila -I	0.060	
				3565	Private	Sarada-III	0.010	
				1417	Private	Sarada -I	0.020	Paramananda Dhir, S/o. Biswanath Dhir, Vill : Nizigaon
				1554	Private	Sarada-II	0.260	Palau Sahu, Jaladhar Sahu, S/o. Gandu Sahu, vill : Nizigaon
				4109	Private	Sarada-III	0.080	
				2785	Private	Sarada-III	0.380	Pradipta Majhi, Pratap Majhi, Gita Majhi, S/D/o. Saheba Majhi, Ujala Majhi, W/o. Saheba Majhi, Vill : Nizigaon
				3401/ 7153	Private	Taila - I	0.040	Prafulla Kumar Behera, S/o. Gangadhar Behera, Vill : Nizigaon
				3171	Private	Taila - I	0.070	
				2954	Private	Sarada -III	0.130	Prafulla Kumar Samal, Antarayami Samal, S/o. Trilokya Samal, Vill : Nizigaon
				2955	Private	Taila - I	0.060	
				2956/ 7497	Private	Sarada - II	0.260	
				2958/ 7645	Private	Sarada-III	0.030	Prafulla Kumar Samal, Hadibandhu Samal, S/o. Trilokya Samal, China Samal, W/o. Trilokya Samal, Vill : Nizigaon

				2873	Private	Gharabari	0.130	Prafulla Samal, Hadibandhu Samal, S/o. Trilokya Samal, China Samal, W/o. Trilokya Samal, Rasananda Samal, S/o. Udayanath Samal, Vill : Nizigaon
				2408	Private	Baje Fasala - I	0.010	Pravakar Dalebehera, Umesh Dalbehera, Cheru Dalbehera, S/o. Srichandan Dalbehera, Vill : Nizigaon
				3015/ 6461	Private	Sarada - III	0.080	
				1244	Private	Sarada-III	0.340	Pravakar Samal, S/o. Ajati Samal, vill : Nizigaon
				2707	Private	Sarada - III	0.070	
				1545	Private	Sarada-III	0.260	Prasadi Behera, Bati Behera, Hata Kishore Behera, S/o. Akula Behera, Vill : Nizigaon
				3568	Private	Sarada - III	0.070	Pandaba Gochhayat, S/o. Gandhar Gochhayat, Vill : Nizigaon
				3571	Private	Sarada - III	0.030	
				3046	Private	Sarada-II	0.020	Pitambar Pradhan, S/o. Damodar Pradhan, Sada Pradhan, S/o. Surendra Pradhan, Adwait Pradhan, Sita Pradhan, Julujuli Pradhan, S/D/o. Dhobei Pradhan, Pana Pradhan, W/o. Dhobei Pradhan, Kartika Pradhan, S/o. Somanath Pradhan, Harmohan Singh, S/o. Mukteswar Singh, Vill : Nizigaon
				3050	Private	Sarada -II	0.010	
				1295	Private	Sarada-II	0.180	Puti Barik, D/o. Anandi Barik, Vill : Nizigaon
				1296	Private	Sarada -II	0.080	Puti Barik, D/o. Anandi Barik, Hadibandhu Barik, S/o. Rajendra Barik, Ainthu Barik, S/o. Musa Barik, Laxidhar Barik, Bamana Barik, S/o. Gouranga Barik, Tulei Barik, W/o. Gouranga Barik, Dhaneswar Barik, S/o. Kruhsna Barik, Malati Barik, W/o. Krushna Barik, Aparti Pani, S/o. Dayanidhi Pani, Narahari Behera, S/o. Damodar Behera, Sanatan Sahu, S/o. Danei Sahu, Ugresan Majhi, S/o. Dambaru Majhi, Vill : Nizigaon
				1297	Private	Sarada -II	0.090	
				1461	Private	Sarada -I	0.110	Phula Singh, W/o. Bhaskar Singh, Vill : Nizigaon
				3404/ 6285	Private	Sarada-III	0.020	Bachha Rout, S/o. Biswanath Rout, Vill : Nizigaon
				3134/ 7189	Private	Sarada-III	0.140	Batakrushna Behera, S/o. Dambarudhar Behera, Vill : Nizigaon
				3161/ 7194	Private	Taila - I	0.080	
				3091	Private	Sarada -III	0.010	
				2934/ 7227	Private	Sarada-III	0.070	Bainshidhar Samal, S/o. Pinda Samal, Vill : Nizigaon
				1267	Private	Sarada-II	0.380	
				2784	Private	Sarada -III	0.020	
				2938	Private	Sarada-III	0.120	
				2798	Private	Sarada -III	0.160	Brahmananda Samal, S/o. Ghana Samal, Vill : Nizigaon
				2799	Private	Sarada -III	0.510	
				1246	Private	Sarada-II	0.290	Baya Gochhayat, S/o. Danei Gochhayat, Vill : Nizigaon

				1247	Private	Sarada - II	0.070	
				1255	Private	Sarada - II	0.010	
				1308	Private	Sarada - II	0.050	Bikram Sethi, S/o. Abhiram Sethi, Vill : Nizigaon
				1310	Private	Sarada-II	0.070	
				4311	Private	Taila - I	0.010	
				4344	Private	Taila - I	0.300	Bichhanda Sahu, Sita Sahu, Subarna Sahu, S/D/o. Dullav Sahu, Lokanath Sahu, Somanath Sahu, Benga Sahu, S/D/o. Hadi Sahu, Bhagabat Sahu, Duani Sahu, Hajiri Sahu, S/D/o. Nabaghana Sahu, Vill : Chauridiha
				4347	Private	Sarada-III	0.010	
				2934	Private	Sarada-III	0.070	Binod Samal, S/o. Pinda Samal, Vill : Nizigaon
				3025	Private	Sarada-III	0.120	Budhia Dalbehera, S/o. Angada Dalbehera, Vill : Nizigaon
				3404/ 6287	Private	Sarada-III	0.010	Baleswar Rout, S/o. Satyananda Rout, Vill : Joragadia
				2788	Private	Sarada-III	0.100	Bhramar Majhi, S/o. Prahallad Majhi, Vill : Nizigaon
				3404/ 6286	Private	Sarada-III	0.010	Bhramar Rout, S/o. Satyananda Rout, Vill : Joragadia
				1380	Private	Sarada-III	0.020	Bhagirathi Pani, Aparti Pani, Menaka Pani, S/D/o. Dayanidhi Pani, Vill : Nizigaon
				1382	Private	Sarada Do Fasali-I	0.160	Bhagirathi Pani, Aparti Pani, Menaka Pani, S/D/o. Dayanidhi Pani, Narana Pani, Naba Kishore Pani, Narottam Pani, Jambubati Pani, Champabati Pani, S/D/o. Biswenath Pani, Trilochan Pani, S/o. Dasarathi Pani, Vill : Nizigaon
				1383	Private	Sarada Do Fasali-I	0.090	
				1384	Private	Sarada Do Fasali-I	0.130	
				1414	Private	Patita	0.080	Bhagirathi Behera, Rabindra Behera, Birendra Behera, Surendra Behera, S/o. Govinda Behera, Vill : Nizigaon
				1530	Private	Sarada-II	0.260	Bhaskar Ch. Singh, S/o. Padma Ch. Singh, Vill : Nizigaon
				1534	Private	Sarada-III	0.160	
				1553	Private	Sarada Do Fasali-II	0.030	
				4110	Private	Sarada-III	0.020	Bholeswar Samal, Pravakar Samal, S/o. Ajati Samal, Niroda Bihari Samal, S/o. Bira Kishore Samal, Premananda Samal, Adikanda Samal, Nalini Samal, S/D/o. Biswanath Samal, Jayanti Samal, W/o. Biswanath Samal, Indramani Samal, Nimai Samal, S/o. Banamali Samal, Vill : Nizigaon
				4111	Private	Sarada-III	0.040	
				1542	Private	Sarada-III	0.150	Mangaraj Sahu, S/o-Kanhei Sahu Vill-Nijagaon
				1550	Private	Sarada Dofasali-II	0.020	

			1542/ 7510	Private	Sarada-III	0.090	
			1551	Private	Sarada Dofasali-II	0.030	Mangaraj Sahu, Mulia Sahu S/o- Kanhei Sahu Vill-Nijagaon
			1552	Private	Sarada Dofasali-II	0.030	
			1263	Private	Sarada-III	0.130	Mangulu Samal, S/o-Butu Samal, Vill-Nijagaon
			1266	Private	Sarada-II	0.200	
			3041	Private	Sarada-III	0.190	
			3042	Private	Sarada-III	0.050	
			2415/ 6538	Private	Bajefasala-I	0.050	Manjari Pradhan, W/o-Mahadev Pradhan Vill-Nijagaon
			2786	Private	Sarada-III	0.020	Manamohana Pahadsingha , Sidheswar Pahadsingha, S/o-Bali Pahadasingha. Meghi Pahadasingha W/o-Bali Pahadsingha Vill-Nijagaon
			3411	Private	Sarada-III	0.010	Manu Raut, Antaryami Raut S/o- Radhakrushna Raut, Menaka Raut w/o-Radhakrushna Raut Vill- Nijagaon.
			3092	Private	SaradaIII	0.020	Maharga Pradhan S/o-Budhia Pradhan Vill-Nijagaon.
			1366/ 6561	Private	Sarada Dofasali-I	0.120	
			3009	Private	sarada-III	0.070	Madhaba Dalabehera S/o- Murari Dalabehera vill-Nijagaon
			2402	Private	Taila-I	0.010	
			1540	Private	Sarada-II	0.580	Mulia Sahu S/o-Kanhei Sahu Vill-Nijagaon
			1542/ 7509	Private	Sarada-III	0.130	
			1541	Private	Sarada-III	0.340	Raghunath Sahu, Kutatha Sahu , S/o-Biswanath Sahu Vill- Nijagaon
			4105	Private	Sarada-III	0.060	
			4118	Private	Sarada-III	0.070	
			3405	Private	Sarada-III	0.030	Ramachandra Raut, Balakrushna Raut, Hatakishore Raut S/o- Chintamani Raut vill-Nijagaon
			4305	Private	Sarada-II	0.020	Rama Bhutia S/o-Chintamani Bhutia Vill-Nijagaon
			4098	Private	Taila-I	0.490	Rama Bhutia, Laxman Bhutia,Gatikrushna Bhutia S/o- chintamani Bhutia Vill-Nijagaon
			4099	Private	Taila-I	0.180	
			4100	Private	Taila-I	0.190	
			4302	Private	Sarada-I	0.300	
			4303	Private	Sarada-I	0.150	
			4309	Private	Sarada-II	0.730	
			2996	Private	Gharabari	0.030	Rukmini Samanta W/o-Sachi Samanta, Vill-Nijagaon
			2997	Private	Sarada-III	0.220	
			2873/ 6975	Private	Gharabari	0.040	Lochana Mohanty,S/o-Parhuram Mohanty ,Vill-Nijagaon
			4040	Private	Sarada-III	0.040	Satyananda Behera, Nityananda Behera ,S/o-Bichitra Dalabehera, Vill-Nijagaon
			3132	Private	Sarada-III	0.010	
			3133	Private	Taila-I	0.010	
			1254	Private	Sarada - II	0.040	Sada Samal, S/o. Mangaraj Samal, Vill : Nizigaon
			1536	Private	Sarada -III	0.240	Sanatan Sahu, Narahari Sahu, Baistamba Sahu, Gadadhar Sahu, Thuri Sahu, S/o. Danei Sahu, Debaki Sahu, W/o. Danei Sahu, Vill : Nizigaon

				3401	Private	Taila - I	0.010	Saraswati Rout, W/o. Bamadev Rout, Vill : Nizigaon
				1197	Private	Sarada - III	0.120	Sarala Kumar Singh, W/o. Nagari Mohan Singh, Vill : Nizigaon
				1364	Private	Sarada Do Fasali-I	0.150	Sapneswar Sahu, S/o. Mohan Sahu, Vill : Nizigaon
				4104	Private	Sarada -III	0.160	
				1457	Private	Sarada -III	0.220	Shyama Sundar Singh, S/o. Padma Ch. Singh, vill : Nizigaon
				2708	Private	Sarada -III	0.040	Sindhua Gochhayat, S/o. Dama Gochhayat, Vill : Nizigaon
				2354	Private	Sarada - II	0.110	Sisir Kumar Samal, S/o. Gokulananda Samal, Droupadi Samal, W/o. Gokulananda Samal, Akshya Kumar Samal, S/o. Daitari Samal, Vill : Nizigaon
				3580	Private	Sarada -III	0.030	Bidyadhar Samal, S/o. Sridhar Samal, Vill : Nizigaon
				2933	Private	Sarada - III	0.050	Sridhar Samal, S/o. Somanath Samal, Mayadhar Samal, S/o. Dibakar Samal, vill : Nizigaon
				2935	Private	Sarada-III	0.140	
				2939	Private	Sarada - III	0.020	
				3579	Private	Sarada - III	0.060	Sriram Gochhayat, S/o. Chemara Gochhayat, vill : Nizigaon
				3410	Private	Sarada-III	0.040	Suka Rout, W/o. Gunanidhi Rout, Basanti Rout, W/o. Batakrushna Rout, Rebatu Rout, W/o. Shyama Sundar Rout, vill : Joragadia
				3550	Private	Sarada - III	0.020	Sukuru Das, Kailash Das, Bhimasen Das, S/o. Dwari Das, Gunduri Das, W/o. Dwari Das, Vill : Nizigaon
				4116	Private	Sarada-III	0.040	Subash Ch. Sahu, Bidulata Sahu, S/D/o. Hrusi Sahu, Vill : Nizigaon
				2789	Private	Sarada - III	0.060	Suruchi Majhi, W/o. Satyananda Majhi, Vill : Nizigaon
				2790	Private	Sarada - III	0.280	
				2791	Private	Sarada -III	0.050	Suresh Ch. Majhi, S/o. Khetrabasi Majhi, Vill : Nizigaon
				2791/ 6641	Private	Sarada - III	0.050	
				4341	Private	Sarada -III	0.060	Somanath Sethi, S/o. Rasananda Sethi, Arakhita Sethi, S/o. Nityananda Sethi, Upasi Sethi, W/o. Gadei Sethi, vill : Nizigaon
				4342	Private	Patita	0.120	
				4097	Private	Taila - I	0.080	
				4293	Private	Taila - I	0.040	
				4294	Private	Taila - I	0.240	
				4340	Private	Sarada - III	0.120	
				2403	Private	Gharabari	0.010	Haguru Dalbehera, S/o. Baikuntha Dalbehera, Vill : Nizigaon
				3015	Private	Sarada -III	0.130	
				2408/ 6443	Private	Baje Fasala-I	0.005	
				1265/ 6113	Private	Sarada -II	0.100	Haguru Behera, S/o. Chakradhar Behera, Vill : Nizigaon
				1546	Private	Sarada - III	0.290	Hata Kishore Behera, S/o. Akula Behera, Vill : Nizigaon
				2946	Private	Taila - I	0.030	
				2952	Private	Sarada -III	0.020	
				4042	Private	Sarada - III	0.050	Haladhar Mahakhuda, Gukuli Mahakhuda, S/o. Ustaba Mahakhuda, Vill : Nizigaon



				3026/ 7678	Private	Sarada - III	0.010	Hasina Bibi, W/o. Abadulu Amidi Khan, Vill : Mehendripur, P.S. : Chandinichowk, Dist : Cuttack
				3033	Private	Sarada - III	0.280	Hadibandhu Sethi, Dama Sethi, S/o. Madan Sethi, Vill : Nizigaon
				4121	Private	Sarada - III	0.210	
				4290	Private	Taila - I	0.010	
				4291	Private	Taila - I	0.030	
				4295	Private	Taila - I	0.080	
				4296	Private	Taila - I	0.020	
				4297	Private	Taila - I	0.850	
				4299	Private	Sarada - II	0.260	
				4300	Private	Sarada - II	0.200	
				4339	Private	Sarada - III	0.870	
				2387	Private	Gharabari	0.020	Hara Moharana, W/o. Banchha Mahara, Bhramar Maharana, Kumar Maharana, Rabi Maharana, S/o. Kastu Maharana, Vill : Nizigaon
				1448	Private	Patita	0.010	Hemanta Kumar Singh, S/o. Maheswar Singh, Lingaraj Singh, Sundar Rajan Singh, Pradipta Kumar Singh, S/o. Basanta Kumar Singh, Adara Singh, W/o. Basanta Kumar Singh, Tanu Singh, W/o. Sarat Kumar Singh, Pankajini Singh, Saudamini Singh, Niranjani Singh, S/D/o. Sarat Kumar Singh, Lokanath Singh, S/o. Hrudananda Singh, Nirmananda Singh, S/o. Sashi Bhusan Singh, Duryodhan Singh, Narana Singh, Bibhuti Singh, S/o. Brahmananda Singh, Sabitri Singh,
				1459	Private	Sarada - III	0.100	W/o. Brahmananda Singh, Bhagaban Singh, Birabahan Singh, Srikanta Singh, S/o. Janaka Singh, Paramananda Singh, Sukhananda Singh, Gagan Bihari Singh, S/o. Uchharna Singh, Mantri Singh, Umesh Singh, Sauri Singh, S/o. Jogeswar Singh, Nagiramohan Singh, S/o. Srimukha Singh, Rasananda Singh, Sadananda Singh, S/o. Dullav Singh, Antara Singh, S/o. Sasadev Singh, Kandarpa Singh, S/o. Dibakar Singh, Shyama Sundar Singh, Bhaskar Singh, Sudhakar Singh, Rusi Kumar Singh, S/o. Padma Ch. Singh, Baistamba Ch. Sahu, S/o. Danei Sahu, Vill : Nizigaon Hemanta Kumar Singh, S/o. Maheswar Singh, Lingaraj Singh, Sundar Rajan Singh, Pradipta Kumar Singh, S/o. Basanta Kumar Singh, Adara Singh, W/o. Basanta Kumar Singh, Tanu Singh, W/o. Sarat Kumar Singh, Pankajini Singh, Saudamini Singh, Nira Singh, S/D/o. Sarat Kumar Singh, Lokanath Singh, S/o. Hrudananda Singh, Shyam Sundar Singh, Sudhakar Singh, Bhaskar Singh, Rusi Kumar Singh, S/o. Padma Charan Singh,

								Mana Mohan Pahada Singh, Sidheswar Pahada Singh, S/o. Walli Pahada Singh, Caste : Kshatriya, Sridhar Behera, Kesaba Behera, Gadadhar Behera, S/o. Batakrushna Behera, Caste : Gopala, Kishori Rana, Iswar Rana, Gokula Rana, Panchu Rana, S/o. Indra Rana, Caste : Mali, Vill : Nizigaon
			2800	Private	Sarada -III	0.460		
			2958 / 7456	Private	Sarada - III	0.090		
			1458	Private	Sarada - III	0.220		
			2374	Private	Sarada -III	0.020		Bachana Dalbehera, W/o. Umesh Ch. Dalebehera, Vill : Nizigaon
			1361	Private	Sarada Do Fasali-I	0.170		Sapneswar Behera, S/o. Kapila Behera, vill : Nizigaon
			2924	Private	Gharabari	0.120		Dinesh Ch. Dash, S/o. Gopal ch. Dash, Vill Talcher Town, P.S. : Talcher
			1378	Private	Sarada -III	0.070		Iswar Rana, S/o. Indramani Rana, Vill : Nizigaon
			1415	Private	Taila - I	0.070		
			3044/ 6237	Private	Patita	0.050		Sahadev Sethi, S/o. Bikram Sethi, vill : Nizigaon
			3027	Private	Gharabari	0.030		Sanatan Das, S/o. Basanta Kumar Das, Vill : Mangalapur, P.S. : Motanga
			3028	Private	Gharabari	0.030		
			3026	Private	Gharabari	0.060		Rupashree Nath, W/o. Satyananda Nath, Vill : Kusapanga, P.S. : Motanga
			3012	Private	Sarada - III	0.020		Dambarudhar Samal, S/o. Nandi Samal, Vill : Nizigaon
			2925	Private	Sarada -III	0.060		Madhaba Kumar Samal, S/o. Janardan Samal, Vill : Dasanali,
			3134	Private	Sarada - III	0.040		Piushakanti Mohuri, S/o. Raja Kumar Mahuri, Vill : Angul Town
			1327	Private	Sarada - II	0.020		Bharat Gochhayat, S/o. Kalia Gochhayat, Vill : Nizigaon
			3092/ 6558	Private	Sarada-III	0.080		Jagabandhu Sahu, Raj Kishore Sahu, Panchanana Sahu, S/o. Jatadhari, Vill : Nizigaon
			3404/ 6292	Private	Sarada -III	0.010		Jyotsnarani Rout, W/o. Karunakar Rout, Vill Joragadia
			3132/ 8063	Private	Sarada-III	0.020		Madhab Ch. Garnaik, S/o. Bainsidhar Garnaik, Vill : Lingarakata, Talcher
			3133/ 8064	Private	Taila -I	0.060		
			2997/ 7871/ 8379	Private	Gharabari	0.060		Santosh Kumar Mangaraj, S/o. Naba Kishore Nayak, Vill : Anuyari, P.S. : Baidaswar, Dist : Cuttack
			1412	Private	Sarada Do Fasali-I	0.170		Nityananda Sahu, S/o. Sanatan Sahu, Vill : Nizigaon
			3587/ 6981	Private	Sarada-III	0.080		Dhulia Gochhayat, S/o. Sukru Gochhayat, Vill : Nizigaon
			2929	Private	Gharabari	0.050		Madhaba Kumar Samal, S/o. Janardan Samal, Vill : Dasanali, P.S. : Talcher
			3404/ 6277	Private	Gharabari	0.040		Padma Ch. Nayak, Girish Ch. Nayak, Sisir Kumar Nayak, Pradeep Kumar Nayak, S/o. Chaitanya Nayak, Vill : Kusapanga, P.S. : Motanga

				2997/ 7864	Private	Gharabari	0.075	Minati Muduli, W/o. Dhaneswar Muduli, vill : Bonda
				3010	Private	Gharabari	0.020	Chahati Samal, W/o. Dambaru Samal, vill : Nizigaon
				3591	Private	Sarada-III	0.010	Ramesh Ch. Samal, Gangadhar Samal, Sudhir Kumar Samal, S/o. Adhikari Samal, Vill : Kharagarprasad, P.S. : Motanga
				3588	Private	Gharabari	0.020	Anjali Samal, W/o. Ramesh Ch. Samal, Gitanjali Samal, W/o. Gangadhar Samal, Abanti Samal, W/o. Sudhira Kumar Samal, Vill : Khadagaprasad
				3008	Private	Sarada -III	0.020	Prakash Kumar Sahu, S/o. Prahallad Sahu, Vill : Talatali
				3016	Private	Gharabari	0.050	Manjulata Samant, W/o. Gopabandhu Samant, Vill : Sanjapada
				4348	Private	Taila - I	0.380	Kumudini Panigrahi, W/o. Sakyasingh Pal, Vill : Gotamara
				3134/ 7190	Private	Sarada - III	0.030	Khira Sagar Behera, S/o. Sidheswar Behera, Vill : Nuahata
				3398	Private	Taila - I	0.010	Khyama Sagar Behera, S/o. Sidheswar Behera, Vill : Nizigaon
				1312	Private	Sarada-II	0.160	Karuna Sagar Behera, S/o. Sidheswar Behera, Vill : Nizigaon
				3161/ 7197	Private	Taila-I	0.080	
				3273	Private	Taila-I	0.060	Bishnupriya Danga, D/o. Sidheswar Behera, Vill : Nizigaon
				1543/ 8498	Private	Sarada-III	0.160	Subala Bhutia, S/o. Jayaram Bhutia, Vill : Nizigaon
				1543/ 8510	Private	Sarada-III	0.160	Nanda Kishore Bhutia, S/o. Kusadwaja Bhutia, Vill : Nizigaon
				1543/ 8511	Private	Sarada-III	0.120	
				1543/ 8521	Private	Sarada - III	0.050	Gouranga Bhutia, S/o. Naba Kishore Bhutia, Vill : Nuahata,
				1543/ 8528	Private	Sarada-III	0.040	Sukru Bhutia, S/o. Naba Kishore Bhutia, vill : Nizigaon
				1543/ 8529	Private	Sarada-III	0.070	
				1543/ 8535	Private	Sarada-III	0.050	Brundaban Bhutia, S/o. Bhagirathi Bhutia, Vill : Nizigaon
				1548	Private	Sarada-II	0.010	Rahas Bhutia, S/o. Bhagirathi Bhutia, Vill : Nizigaon
				1543/ 8549	Private	Sarada-III	0.020	Akrura Bhutia, S/o. Bhabagrahi Bhutia, Vill : Nizigaon
				1543/ 8550	Private	Sarada-III	0.110	
				1539	Private	Sarada-II	0.380	Ajati Bhutia, S/o. Bhabagrahi Bhutia, Vill : Nizigaon
				1543	Private	Sarada-III	0.010	
				3399/7155	Private	Taila - I	0.020	Dinabandhu Dhir, Suwendu Dhir, S/o- Karunakar Dhir, Rasamanjari Dhir, W/o- Brajabandhu Dhir, Vill- Nijigaon
				1365	Private	Sarada Do Fasali-I	0.580	Mahadei Behera, W/o. Mahadev Behera, Vill : Nizigaon
				2796/ 8606	Private	Sarada -III	0.030	Prafulla Samal, Santosh Samal, S/o. Girish Ch. Samal, Vill : Nizigaon
				2796	Private	Sarada-III	0.190	Bijaya Kumar Samal, S/o. Sidheswar Samal, vill : Nizigaon
				2797	Private	Sarada-III	0.090	
				3603	Private	Gharabari	0.040	Bijaya Kumar Dhir, S/o.

								Chakradhar Dhir, Vill : Nizigaon
			3603/ 6138	Private	Gharabari	0.100		
			3400/ 7706	Private	Taila - I	0.030		Suresh Ch. Nayak, S/o. Mayadhar Nayak, Vill : Nizigaon
			3049	Private	Sarada-II	0.080		Bimalendu Mohanty, S/o. Padma Ch. Mohanty, Vill : Kharabelanagar, Bhubaneswar
			3048	Private	Sarada - II	0.090		Bimalendu Mohanty, S/o. Padma Lochan Mohanty, Vill : Kharabelanagar, Bhubaneswar
			1251	Private	Sarada-II	0.070		Mitu Gochhayat, S/o. Kurti Gochhayat, vill : Kandasar
			3170	Private	Gharabari	0.040		Chinmayee Rath, W/o. Manash Ranjan Rath, Vill : Nizigaon
			2921	Private	Sarada - III	0.070		Madhuchhanda Dhal, W/o. Saroj Dhal, Vill : Nizigaon
			3273/ 8403	Private	Taila -I	0.035		Radhashyam Behera, S/o. Krupasagar Behera, Vill : Nizigaon
			1294	Private	Sarada -II	0.160		Bharat Ch. Sahu, S/o. Gadadhar Sahu, Vill : Nizigaon
			2956	Private	Sarada-II	0.100		Bishnu Ch. Dhir, S/o. Antaryami Dhir, Vill : Nizigaon
			2957	Private	Taila -I	0.010		Suphala Dhir, D/o. Antarayami Dhir, Vill : Nizigaon
			2953	Private	Taila - I	0.010		Bishnu Ch. Dhir, S/o. Bichitrananda Dhir, Bibhu Ranjan Dhir, S/o. Antaryami Dhir, Ashok Kumar Dhir, Anil Kumar Dhir, Aswini Kumar Dhir, Anjan Kumar Dhir, S/o. Brahmananda Dhir, Abani Dhir, Arati Dhir, Asa Dhir, Alaka Dhir, D/o. Pabitra Dhir, Puspalata Dhir, W/o. Pabitra Dhir, Vill : Nizigaon
			1543/ 8545	Private	Sarada - III	0.060		Narmada Swain, W/o. Laxman Swain, Vill : Nizigaon
			3030	Private	Gharabari	0.040		Sudhakar Sahu, Manoranjan Sahu, S/o. Balaram Sahu, Vill : Nizigarh, Talcher Town
			1298	Private	Sarada - II	0.310		Sujan Barik, S/o. Hadibandhu Barik, Vill : Nizigaon
			1544/ 8855	Private	Sarada-III	0.180		Thaka Sahu, S/o. Kurtha Sahu, Vill : Nizigaon
			3168/ 7101	Private	Gharabari	0.040		Bimalendu Mohanty, S/o. Padma Ch. Mohanty, vill Plot No.264, Kharbela Nagar, Bhubaneswar
			3169	Private	Gharabari	0.010		
			3168	Private	Gharabari	0.010		
			1451	Private	Sarada-II	0.010		Gatikrushna Singh, S/o. Shyama Sundar Singh, Vill : Nizigaon
			2937	Private	Sarada -III	0.140		Benudhar Samal, S/o. Girish Ch. Samal, Vill : Budhapanka
			2936	Private	Sarada-III	0.100		Benudhar Samal, Kumuda Samal, S/o. Girish Ch. Samal, Vill : Budhapanka
			1195	Private	Sarada -III	0.040		Debaraj Singh, Ekadasia Singh, Rabi Narayan Singh, S/o. Shreeram Singh, vill : Nizigaon
			3274	Private	Taila - II	0.080		Brajabandhu Barik, Balabhadra Barik, S/o. Gangadhar Barik, Vill : Nizigaon
			3273/ 8835	Private	Taila - I	0.050		Shyamalendu Biswal, S/o. Mangulu Ch. Biswal, Vill : Banarpal
			3275	Private	Sarada -III	0.010		Sujan Barik, S/o. Hadibandhu Barik, Vill : Nizigaon

			1449	Private	Gharabari	0.070	Satyanarayan Nayak, S/o. Kailash Ch. Nayak, Vill : Gailo, P.S. : Parjanga
			3130	Private	Sarada - III	0.020	Nalini Bhukta, W/o. Bhakta Ch. Bhukta, Vill : Tumugula, P.S. : Samal
			1377	Private	Sarada-III	0.120	Shyama Sundar Sethi, S/o. Batakrushna Sethi, Vill : Nizigaon
			3020	Private	Sarada -III	0.040	Ranjan Kumar Beura, S/o. Prahallad Ch. Beura, Vill : Budhapanka
			3020/ 6449	Private	Sarada - III	0.020	
			1544	Private	Sarada-III	0.100	Padma Ch. Behera, S/o. Kunja Behera, Vill : Banarpal
			4048	Private	Sarada-III	0.060	
			4049	Private	Sarada - III	0.350	
			3273/ 9261	Private	Taila - I	0.040	Ganeswar Sahu, S/o. Ekadusia Sahu, Vill : Talmul Patna
			4094	Govt.	Unnata Jojana Jogya	0.060	Adaba Jogya Anabadi
			2368	Govt.	Rasta	0.200	Sarbasadharana
			3002	Govt.	Rasta	0.020	Sarbasadharana
			3044	Govt.	Rasta	0.050	Sarbasadharana
			3045	Govt.	Rasta	0.040	Sarbasadharana
			3633	Govt.	Rasta	0.050	Sarbasadharana
			1428	Govt.	Rasta	0.150	Sarbasadharana
			1416	Govt.	Basti Jogya	0.020	Rakhita
			2355	Govt.	Gochar	0.020	Rakhita
			2356	Govt.	Adi	0.010	Rakhita
			2367	Govt.	Jalasaya-II	0.130	Rakhita
			2874	Govt.	Nayanajori	0.050	Rakhita
			2875	Govt.	Nayanajori	0.050	Rakhita
			2967	Govt.	Nayanajori	0.040	Rakhita
			2968	Govt.	Rasta	3.200	Rakhita
			2969	Govt.	Nayanajori	3.650	Rakhita
			3380	Govt.	Nayanajori	0.530	Rakhita
			3381	Govt.	Rasta	0.300	Rakhita
			3383	Govt.	Nayanajori	4.480	Rakhita
			4087	Govt.	Nayanajori	0.100	Rakhita
			4088	Govt.	Rasta	0.100	Rakhita
			4091	Govt.	Puratan Patita	0.010	Rakhita
			4095	Govt.	Puratan Patita	0.030	Rakhita
			4096	Govt.	Unnata Jojana Jogya	0.070	Rakhita
			4119	Govt.	Rasta	0.020	Rakhita
			4120	Govt.	Rasta	0.100	Rakhita
			4145	Govt.	Pani Nala	0.300	Rakhita
			4334	Govt.	Gochar	0.240	Rakhita
			4335	Govt.	Gochar	0.050	Rakhita
			4337	Govt.	Gochar	0.010	Rakhita
			4343	Govt.	Gochar	0.200	Rakhita
			4346	Govt.	Gochar	0.010	Rakhita
			4349	Govt.	Gochar	0.070	Rakhita
			4350	Govt.	Gochar	2.960	Rakhita
			2367/ 6411	Govt.	Jalasaya-II	0.030	Rakhita
			3395/ 7809	Govt.	Rasta	0.050	Rakhita
			3408/ 7810	Govt.	Rasta	0.040	Rakhita
			3409/ 7811	Govt.	Rasta	0.050	Rakhita
			3403/7812	Govt.	Rasta	0.120	Rakhita
			3401/7815	Govt.	Rasta	0.220	Rakhita
			3404/7383	Govt.	Rasta	0.030	Rakhita
			3402/7820	Govt.	Rasta	0.180	Rakhita
			3399/ 7813	Govt.	Rasta	0.200	Rakhita
			3400/ 7814	Govt.	Rasta	0.010	Rakhita

				3400/7154	Govt.	Rasta	0.060	Rakhita
				3404/6285/ 7399/7816	Govt.	Rasta	0.050	Rakhita
				3399/7157	Govt.	Rasta	0.240	Rakhita
				3404/ 6287/ 7817	Govt.	Rasta	0.030	Rakhita
				3404/ 6286/ 7818	Govt.	Rasta	0.030	Rakhita
				3404/ 6292/ 7819	Govt.	Rasta	0.040	Rakhita
				3405/ 7821	Govt.	Rasta	0.100	Rakhita
				3273/ 7822	Govt.	Rasta	0.400	Rakhita
				3398/ 7823	Govt.	Rasta	0.030	Rakhita
				3404/6293/ 7824	Govt.	Rasta	0.040	Rakhita
				3399/ 7155/ 7825	Govt.	Rasta	0.200	Rakhita
				3274/ 7826	Govt.	Rasta	0.040	Rakhita
				3404/ 6277/ 7827	Govt.	Rasta	0.060	Rakhita

[F. No. NHAI/11013/PIU/Sambalpur/Odisha/NH-42/Notification/3D]

V. KRISHNASWAMY, Dy. Secy.